

Date: 27th January, 2022

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

Respected Sir,

Sub.: Open Offer for acquisition of 27,84,600 (Twenty Seven Lakhs Eighty Four Thousand Six Hundred Only) fully paid up equity shares of Rs.10/- each from equity shareholders of Mehai Technology Limited (hereinafter referred to as "Target Company" or "MEHAI") except parties to Share Purchase Agreement ("SPA") dated 18th October, 2021 by Dynamic Services & Security Limited (hereinafter referred to as "Acquirer" or "DYNAMIC") pursuant to and in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations, 2011.

Re: Pre-Offer Advertisement – Reg. 18(7) of SEBI (SAST) Regulations, 2011 and Corrigendum to Detailed Public Statement

This is in continuation to our letter dated 18<sup>th</sup> October, 2021, 26<sup>th</sup> October, 2021, 2<sup>nd</sup> November, 2021 and 18<sup>th</sup> January, 2022. We are pleased to inform you that the Acquirer for the captioned open offer have released the Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to Detailed Public Statement and published on 26<sup>th</sup> January, 2022 in the below mentioned newspapers:

Name of the Newspaper	Edition
Financial Express	English National Daily
Jansatta	Hindi National Daily
Mumbai Lakshadeep	Mumbai
Business Remedies	Jaipur
Duranta Barta	Kolkata

In this regard, we are enclosing herewith the following documents:

(1) Copies of Pre-Issue Advertisement and Corrigendum to Detailed Public Statement

Please acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,

For Finshore Management Services Limited

(Director)

Contact Phone: 033-22895101

Mobile: 9831020743

Email Id: ramakrishna@finshoregroup.com

Encl.: As above

Kolkata Kolkata

# FINANCIAL EXPRESS

CIN:L70109DL1986PLC025841 Regd. Office: 37, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi 110024 1EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER, 2021 (Financial Results (Amount in Rs. Lakhs)

MORGAN VENTURES LIMITED

Sr.	Particulars	Three Mo	nths Quar	ter Ended	For the Nine I	Months Ended	Year Ended	
No.			700000000000000000000000000000000000000	31.12.2020 (UnAudited)	31.12.2021 (UnAudited)	31.12.2020 (UnAudited)	31.03.2021 (Audited)	
1.	Total Income from Operations	410.86	510.14	147.25	1043.42	474.10	580.98	
2.	Total Expenses	160.31	99.51	71.11	319.17	234.92	292.74	
3.	Net Profit for the period (before exceptional items)	250.55	410.63	76.14	724.25	239.18	288.24	
4.	Net Profit for the period before tax	250.55	410.63	76.14	724.25	239.18	288.24	
5.	Net Profit for the period after tax	249.62	462.79	76.14	775.48	239.18	145.57	
6.	Total Comprehensive income for the period	0	0	0	0	0	0	
7.	Paid Up equity share capital (Face Value Rs. 10/-)	994.93	994.93	989.87	994.93	989.87	994.93	
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS)	2.50	4.67	0.76	7.75	2.39	1.47	

1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com) and Companies website (www.morganventures.in)

2. The above results have been unaudited by the Statutory Auditors of the Company, reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 25th January, 2022.

Place: New Delhi For Morgan Ventures Limited Date: January 25, 2022 Sd/-

Kuldeep Kumar Dhar (Managing Director)

FORM NO.CAA. 2 [Pursuant to Section 230(3) and rule 6 and 7] BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, KOLKATA BENCH AT KOLKATA C.A. (C.A.A.) No. 201/(KB)/ 2021

IN THE MATTER OF Companies Act, 2013 And

IN THE MATTER OF Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013. And

In the Matter of:

The Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 And

In the Matter of:

NEW HOLDING AND TRADING COMPANY LIMITED, having Corporate Identification No.U65990WB1981PLC218505 and having its registered office at 8/1B. Diamond Harbour Road, Kolkata - 700 027, West Bengal.

... Transferor Company

In the matter of:

INDUSTRIAL AND PRUDENTIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED, having Corporate Identification No.L65990WB1913PLC218486 and having its registered office at 8/1B, Diamond Harbour Road, Kolkata – 700 027, West Bengal

... Transferee Company

New Holding And Trading Company Limited

2. Industrial And Prudential Investment Company

... APPLICANTS

Notice and advertisement of notice of the meeting of equity shareholders of Industrial And Prudential Investment Company Limited Notice is hereby given that by an order dated 12th January, 2022 read with order dated 14th January, 2022 the Kolkata Bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) has directed meeting to be held of the equity shareholders of the Transferee Company above-named to be conducted through video conferencing (VC) or any other audio visual mode (OAVM) on Saturday, 26th February, 2022 for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the amalgamation proposed to be made between New Holding And Trading Company Limited (Transferor Company) above-named with Industrial And Prudential Investment Company Limited (Transferee Company) and their respective creditors and share

In pursuance of the said order, the meeting of the equity shareholders of the Transferee Company will be held on 26th February, 2022 through video conferencing or any other audio visual mode (OAVM):

## Shareholders for joining the meeting:

The Company is providing VC platform by InstaMeet of Link Intime India Private Limited. Shareholders may access the same at https://instameet.linkintime.co.in by using the remote e-voting credentials they may follow the procedures mentioned in the notes to the notice.

The remote e-voting will commence from 23rd February, 2022 at 9.00 A.M. (IST) and end on 25th February, 2022 at 5.00 P.M. (IST).

Manner of Casting Votes(s) through e-voting for shareholders: a) Member will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the Meeting through electronic voting system

b) The manner of voting remotely ("remote voting") by the shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their mail addresses will be provided in the Notice of Meeting. The details will also be available on the website of the company at www.industrialprudential.com and on the website of the Registrar and Transfer Agent Link Intime India Private Limited ("RTA").

c) The facilities for e-voting will also be made available at the Meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the

d) The login credential for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Shareholders who do not receive email or whose email addresses are not registered with the company Depository Participant(s), may generate login credentials by following instruction given in the Notes to Notice of the Meeting.

e) The same login credentials may also be used for attending the Meeting through VC/OAVM.

An equity shareholder whose name appears in the Register of members of the Transferee Company, as on the cut-off date, i.e., on 18th February, 2022 will be considered for the purpose of voting, Person(s) who are not equity shareholders as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

Corporate/institutional share holders can appoint their representative by sending scan image of authority letter and board resolution by email through their registered email address with copies marked to the Company at contact@industrialprudential.com, to the RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in and to the Scrutiniser at mrathico@gmail.com at least 72 hours before the meeting. No attendance slip is required for the meeting. Please note that as per the MCA Circulars the facility of appointment of proxies will not be available for the meeting on 26th February, 2022.

For inspection of the said Scheme of Amalgamation and of the Statement under Section 230 read with Section 232 of the Companies Act, 2013 pertaining to the proposed resolution to be passed at the meeting, please see website of the Transferee Company.

Pursuant to order dated 12th January, 2022, Mr. Rites Goel Advocate has been appointed as Chairperson of the meeting and Ms. Kumkum Rathi, Company Secretary has been appointed as the Scrutiniser for the said meeting.

The result of the remote e-voting shall be announced on or before 28th February, 2022, upon receipt of the Scrutinizer's report and the same shall be displayed on the website of the Transferee Company at www.industrialprudential.com and on the website of the stock exchange i.e. BSE at www.bseindia.com, and on the website of the RTA https://www.linkintime.co.in being the agency appointed by the Transferee Company to provide the voting facility to the Shareholders, as aforesaid.

financialexp.epa

Dated this 21st January, 2022.

Rites Goel

Chairperson appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal for the aforesaid meeting



**Investment Manager:** Quantum Asset Management Company Private Limited 6th Floor, Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400021, India Toll Free No.: 1800-209-3863/1800-22-3863; Toll Free Fax No.: 1800-22-3864 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com; Website: www.QuantumMF.com CIN: U65990MH2005PTC156152

> Invitation **Investor Awareness Program**

Title: Importance of right asset allocation on investment

Date: 30<sup>th</sup> January 2022 Time: 10:30 am - 11:30 pm



Scan the above code to register.

We look forward to your presence.

Thank you!

Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



### DLF CYBER CITY DEVELOPERS LIMITED

(CIN - U45201HR2006PLC036074)

Regd. Office: 10" Floor, Gateway Tower, DLF City, Phase - III, Gurugram - 122002 Phone No. +91 124 456 8900; E-mail: office-business@dlf.in; Website: www.dlf.in/dccdl/

UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2021 (₹ in Lakhs)

S.		Quarte	r ended	Year ended
No.	Particulars	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
NO.		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	52,301.14	51,862.32	2,02,844.83
2	Net Profit for the period/year (before tax, Exceptional and /or Extraordinary items #)	18,474.83	13,144.12	57,444.54
3	Net Profit for the period/year before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items#)	18,474.83	13,144.12	57,444.54
4	Net Profit for the period/year after tax (after Exceptional and / Extraordinary Items#)	14,500.36	10,662.02	47,392.04
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) / year after tax and Other Comprehensive Income (after tax)	14,504.21	10,702.13	47,415.31
6	Paid up Equity Share Capital	2,26,417.77	2,26,417.77	2,26,417.77
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve)*	4,65,156.47	4,56,711.99	4,73,315.57
8	Securities Premium Account	10,459.83	10,459.83	10,459.83
9	Net worth	3,92,360.25	3,83,915.77	4,00,519.35
10	Paid up debt capital/Outstanding Debt	11,14,929.60	9,88,164.85	10,51,255.51
11	Outstanding redeemable Preference shares			-
12	Debt Equity Ratio	1.61	1.45	1.50
13	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (not annualised for quarter ended) (for continuing and discontinued operations)			
	Basic (₹absolute amount)	0.64	0.47	2.09
	Diluted (₹absolute amount)	0.64	0.47	2.09
14	Capital Redemption Reserve	31,547.73	31,547.73	31,547.73
15	Debenture Redemption Reserve	23,104.79	7,261.94	16,669.81
16	Debt Service Coverage Ratio	1.10	1.06	1.15
17	Interest Service Coverage Ratio	1.87	1.49	1.59

# Exceptional and/or extraordinary items adjusted in the Statement of the Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules \*Includes Paid up Class B equity share capital of ₹50,000.00 lakhs

### Notes to the unaudited standalone financial results for the quarter ended December 31, 2021:

- 1 The above unaudited standalone financial results of the Company have been prepared pursuant to the requirements of Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), as amended and in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules,
- 2 The above unaudited standalone financial results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on January 25, 2022. The financial results for the period ended December 31, 2021 have been reviewed by the statutory auditors
- 3 The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI LODR. The full format of the quarterly unaudited financial results are available on the website of the Stock Exchange i.e., https://www.bseindia.com/ and the Company's website i.e., https://www.dlf.in/dccdl/.

4 For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI LODR, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed at https://www.bseindia.com/

For and on behalf of the Board of Directors of DLF Cyber City Developers Limited

Place: Gurugram Date: January 25, 2022

**DECEMBER 31, 2021** 

Sriram Khattar Managing Director DIN: 00066540





## **BURGER KING INDIA LIMITED**

(Formerly known as Burger King India Private Limited) CIN: L55204MH2013FLC249986



Sr.	Particulars	For the Quarter ended		For the Nine Months ended	
No.		December 31, 2021	December 31, 2020	December 31, 2021	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1	Total Income from Operations	2,830.77	1,758.69	6,861.63	
2	Net Loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(151.57)	(290.26)	(797.38)	
3	Net Loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(151.57)	(290.26)	(797.38)	
4	Net Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(151.57)	(290.26)	(797.38)	
5	Total Comprehensive loss for the period (comprising loss for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	(151.62)	(292.86)	(804.44)	
6	Paid up Equity Share Capital	3,842.52	3,816.55	3,842.52	
7	Other Equity				
8	Earnings per share (not annualised for the quarter)(Face value of Rs. 10/- each)	2 2			
	a) Basic (in Rs.)	(0.39)	(0.98)	(2.08)	
	b) Diluted (in Rs.)	(0.39)	(0.98)	(2.08)	

a) The above financial results, as reviewed and recommended by the Audit Committee, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on January 24, 2022.

b) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and of the Company (www.burgerking.in).

> For Burger King India Limited (Formerly known as Burger King India Private Limited)

Date: January 24, 2022 Place: Mumbai

Rajeev Varman Whole-time Director and Chief Executive Officer

Registered Office: Unit Nos. 1003 To 1007, 10" Floor, Mittal Commercia, Asan Pada Road, Chimatpada, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Website: www.burgerking.in Tel No.: +91 22 7193 3000 | E-mail: investor@burgerking.in

### **Shiva Cement Ltd**

CIN: L26942OR1985PLC001557

Regd. Off: Village - Telighana, Po- Birangatoli, Tehsil-Kutra, Dist. Sundargarh, Odisha-770018. Website: www.shivacement.com | E-mail: cs@shivacement.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021. (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Year	Nine Months	Corresponding Quarter	Year to date
	Ended	Ended	Ended	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
)	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
Total Income from Operation	20.00	440.62	704.03	3,255.19
Net Profit / (Loss) for the period				
(before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(592.87)	(1917.98)	(792.33)	(2948.23)
Net Profit / (Loss) for the period before tax				
(after Exceptional and / or Extraordinary items)	(592.87)	(1917.98)	(792.33)	(2948.23)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax( after	(400.45)	(4.440.75)	(500.04)	(0.100.00)
Exceptional and / or Extraordinary items)	(439.15)	(1419.75)	(586.04)	(2196.83)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising				
Profit/(loss) for the period (after tax) and Other	(420.02)	(1.405.05)	(505.70)	(0100 57)
Comprehensive Income(after tax)] Equity Share Capital	(429.03) 3,900.00	(1405.95) 3,900.00	· ' /	·
Earning Per Share (of 2/- each)	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
Basic	(0.23)	(0.73)	(0.30)	(1.13)
Diluted	(0.23)	(0.73)	` '	· · / I
	` 1	` ′	· í	` ′
Note: The above is extract of detailed format of Unadited Fire	nancial Result	s for the quart	er and nine m	onths ended

31st December 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR)

The full format of Quarterly/Annual results are available in the Company's website www.shivacement.com and on the website of stock exchange bseindia.com

> For and on behalf of Board of Directors Shiva Cement Limited

> Manoj Kumar Rustagi

Whole-time Director

Advertisement under Regulation 18 (7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended and Corrigendum to the Detailed Public Statement with respect to the open offer to the shareholders of

#### **MEHAI TECHNOLOGY LIMITED** Registered Office: B-40, Sudarshanpura Industrial Area (extension), Jaipur-302006, Rajasthan, India

Corporate Identification Number (CIN): L74110RJ2013PLC066946 Tel: 0141-2212101; Email: mehai.technology@gmail.com;

Open Offer for acquisition of 27,84,600 (Twenty Seven Lakhs Eighty Four Thousand Six Hundred Only) fully paid up equity shares of Rs.10/- each from equity shareholders of Mehai Technology Limited (hereinafter referred to as "Target Company" or "MEHAI") except parties to Share Purchase Agreement ("SPA") dated 18th October, 2021 by Dynamic Services & Security Limited (hereinafter referred to as "Acquirer" or "DYNAMIC") pursuant to and in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations, 2011. This Advertisement and Corrigendum is being issued by Finshore Management Services Limited, on behalf of Dynamic Services & Security Limited ("Acquirer") in respect of the open offer to acquire shares from the public shareholders of Mehai Technology Limited

("Offer Opening Public Announcement"). The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made on 26th October, 2021 in Financial Express, English Daily (in all editions), Jansatta, Hindi Daily (in all editions), Mumbai Lakshadeep, Marathi Daily (in Mumbai edition), Business Remedies, Hindi Daily (in Jaipur edition) and in Duranta Barta, Bengali Daily (in Kolkata edition). The Offer Price is Rs.46.54/- (Rupees Forty Six and paise Fifty Four Only) per Equity Share. There has been no revision in the Offer

2. Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company:

The committee of independent directors of the Target Company ("IDC") published its recommendation on the Offer on 18th January. 2022 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011.

3. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI SAST Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations, 2011. 4. Despatch of Letter of Offer to the public shareholders.

The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified

**Date: January 24, 2022** 

Place: Mumbai

Date has been completed (either through electronic or physical mode) by 20th January, 2022. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer and parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www. finshoregroup.com) from which the Public Shareholders can download/print the same. 5. Instructions to the public shareholders

5.1 In case the shares are held in physical form As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 3, 2018, bearing

number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their respective Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details. 5.2 In case the shares are held in demat form An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their shares in the open offer as

reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 1, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference

per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details. 5.3 Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:

Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

5.3.2 In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), along with the following details: In case of physical shares: Name, address, distinctive numbers, folio nos, number of Equity Shares tendered/ withdrawn.

In case of dematerialized shares: Name, address, number of Equity Shares tendered/withdrawn, DP name, DP ID number, Beneficiary account no., - and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Shareholders have to ensure that their order

is entered in the electronic platform of BSE through the Selling broker which will be made available by BSE before the closure of the Tendering Period. 6. Any other changes suggested by SEBI in their comments to be incorporated.

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 2nd November,

2021 ("Draft Letter of Offer"). SEBI, vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/OW/1584 dated 11th January, 2022, issued its comments on the Draft Letter of Offer. These comments have been incorporated in the Letter of Offer. 7. Any other material change from date of the Public Announcement

8. Details regarding the status of the Statutory and other approvals To the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required by the Acquirer to acquire the equity shares

tendered pursuant to this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the closure of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals. The Acquirer will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations, 2011. 9. Corrigendum to the DPS: i) The Point D (D.2) of the Detailed Public statement has to be read as- "The Acquirer has entered into the SPA on 18th October,

2021 whereby the Acquirer has agreed to acquire 77,06,100 fully paid-up equity shares of face value Rs.10/- each of the Target

Company at a price of Rs. 2/- per Equity Share ("Sale Shares"), which constitutes 71.95% of the total issued, subscribed, paid-up

Revised Schedule of Activities

equity share capital and voting capital of the Target Company." ii) Change in contact details of Acquirer:

Website: https://dssl.ind.in/ Email: cs@dssl.ind.in

10. Schedule of Activities:

The schedule of major activities under the Offer is set out below: Nature of the Activity Original schedule of activities (as

	disclosed in the draft	Letter of Offer)		
	Date	Day	Date	Day
Date of Public Announcement	18th October, 2021	Monday	18th October, 2021	Monday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	26th October,2021	Tuesday	26th October,2021	Tuesday
Filing of draft letter of offer with SEBI along with soft copies of Public Announcement and detailed Public Statement	2nd November,2021	Tuesday	2nd November,2021	Tuesday
Last date for a competing offer*	18th November,2021	Thursday	18th November,2021	Thursday
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	26th November,2021	Friday	11th January, 2022***	Tuesday
Identified Date**	30th November,2021	Tuesday	13th January, 2022	Thursday
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the public shareholders of the Target Company as on the identified Date	7th December, 2021	Tuesday	20th January, 2022	Thursday
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	10th December,2021	Friday	25th January, 2022	Tuesday
Last date by which the recommendation of the committee of independent directors of the Target Company will be published.	9th December, 2021	Thursday	24th January, 2022	Monday
Date of public announcement for opening of the Offer in the newspapers where the DPS has been published.	13th December,2021	Monday	26th January, 2022#	Wednesda
Date of Commencement of tendering period	14th December,2021	Tuesday	28th January, 2022	Friday
Date of Closing of tendering period	27th December,2021	Monday	10th February, 2022	Thursday
Last date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/return of unaccepted Equity Shares.	10th January, 2022	Monday	24th February, 2022	Thursday

\*There was no competing offer for the Acquirer's Offer \*\* Identified date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All shareholders (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer and Seller) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

\*\*\*actual date of receipt of SEBI final observations \*On 27th January, 2022, there is no publication, hence this advertisement is published on 26th January, 2022

the information contained in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

Finshore Management Services Limited, Anandlok Block A, Room-207, 227, AJC Bose Road, Kolkata-700020

The Acquirer accepts full responsibility for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI SAST Regulations, 2011 and for

This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum would also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in

Tel: +91- 033-22895101/9831020743 Website: www.finshoregroup.com Investor Grievance email id: ramakrishna@finshoregroup.com

Contact Person: Mr. S Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185

**Dynamic Services & Security Limited** 

Sd/-**Managing Director** 

Place: Kolkata Date: 25th January, 2022

Adfactors 560



In the matter of the Limited Liability Partnership

Act, 2008, Section 13 (3)

In the matter of Equities Legal LLP having its registered office at B-1 Ground Floor Soami Nagar New Delhi South Delhi - 110017 (Petitioner). Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Delhi" to the state of "Assam" Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Delhi, within 21( twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above. FOR AND ON BEHALF OF EQUITIES LEGAL LLP **KARAN KHANNA** 

#### ) बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda frent to fall सार्वजनिक सूचना

**Designated Partner** 

(DIN: 07392129)

ज्ञात हो कि मूल विकय विलेख, दिनांक 25/11/1993, श्री ईश्वर चंद पुत्र बिशम्बर सहाय वर्मा द्वारा श्री अरविंद कुमार पुत्र ईश्वर चंद वर्मा के पक्ष में निष्पादित, एस.आर. मवाना, जिला मेरठ, पुस्तक नं. 1 खंड 352 के पुष्ठ 23 / 38 पर क्रमांक 5113 पर पंजीकृत, मकान नं. 514 मोह खेरात अली, मवाना कलां, तहसील मवाना, जिला मेरठ यू.पी. से संबंधित है। और कुल क्षेत्रफल 56. 55 वर्ग गज कहीं खो / गुम गया है यह संपत्ति 08/11/1994 को बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिवेणी गंज हापूड़ के पास बंधक रखी गई थी। इस टाईटल दस्तावेज का उपयोग अवैध और कानून के विरुद्ध होगा। हालाँकि, यदि किसी को यह दरतावेज कहीं मिला है, तो उसे निम्नलिखित पते पर पहुचाने का अनुरोध किया जाता है।

> मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, त्रिवेणी गंज शाखा हापुड़

District Solan Himachal Pradesh -174103 Corporate Identification Number: L26101HP1981PLC004430 Email: admin@jaimataglass.com Website: www.jaimataglass.com

P.M on Friday, 4th February, 2022 at head office. 4" Floor, Property No.2, Khasra No. 619/4. Gopala Building, opp. Tivoli Garden, Chattarpur, New Delhi-110074 amongst other businesses to consider and take on record the Unaudited financial results of the Company for the quarter Further, pursuant to Regulation 47(2) of SEB (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copy of notice and financial results shall be available on the Company website at www.jaimataglass.com and also at

Date : 25.01.2022 Chander Mohan Marwah Place : New Delhi (Managing Director)

ओ.ए. सं. 460/2021 दिनांक 24.01.2022 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई-कॉपॉ. बैंक

मैसर्स गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्रा. लि. एवं अन्य सेवा में.

दिल्ली-110051, ईस्ट दिल्ली और सी-56/5 चतुर्थ तल मेंटेक बिल्डिंग सेक्टर 62, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301, और: मेन रोड गोल्फ सिटी, सेक्टर 75, गीतम

विकास क्षेत्र नई दिल्ली, दिल्ली - 110022 (3) श्री अजय कुमार पुत्र श्री एन के शर्मा, ई 47

सेक्टर-40 गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -ईस्ट, दिल्ली - 110092

प्रथम तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली, दिल्ली - 110048

(6) मैसर्स गार्डेनिया इंडिया लि., 69 भूतल, निकंतन, मयूर विहार फेज- ।, ईस्ट, दिल्ली प्रदेश -201301

(7) मैसर्स एम्स प्रमोटर्स प्रा. लि., डी3/10 पश्चिम मार्ग वसंत विहार साउथ वैस्ट. दिल्ली - 110057, **और:** आर 10, 11 और 12 अंसल चैंबर भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली

गणेश नगर के सामने, ईस्ट, दिल्ली 75, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश — 201307 आपको दिनांक 24-02-2022 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित

अनुपस्थिति में किया जाएगा।

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

लिया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए:--(i) सभी अधिवक्ता / पात्रगण "सिस्को येबेक्स" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" के पब्लिक नोटिस हेड के अंतर्गत उपलब्ध होगी।

के तहत 24 जनवरी 2021 को दिया गया।

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आरित रिकवरी शाखा-।

प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली—110015, फोन: 011-25419177, 25412977, ईमेल : sbi.05169@sbi.co.in कब्जा सूचना

नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 3) के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत उधारकर्ता श्री करम सिंह भाटी और श्रीमती उषा देवी (तदोपरान्त कर्जदार और गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को एक मांग नोटिस दिनांक 25-10-2021 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 1.07.96.152.31 (रू. एक करोड सात लाख छियान्वे हजार एक सौ बावन और पैसे इकतीस मात्र) दिनांक 25.10. 2021 तक और साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकरिमक खर्चे लागत, प्रभार इत्यादि सहित उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भगतान करने को कहा

कर्जदार उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 उक्त नियमों के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा 21.01.2022 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते कुल राशि रू 1,07,96,152.31 (रू. एक करोड़ सात लाख छियान्वे हजार एक सौ बावन और पैसे इकतीस मात्र) दिनांक 25.10.2021 तक और खर्चें लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा

कर्जदार का ध्यान एक्ट की घारा 13 की उप घारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। जसके तहत आप बँक की पूर्ण बकाया राशि बँक द्वारा वहन किए गए सभी खर्चों, लागतों एवं प्रभारों सहित, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित करने द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्यामूत आस्तियों की बिक्री की इस सुचना के प्रकाशन की तिथि तक ही चुका सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि आप बैंक की पूर्ण बकाया राशि बैंक द्वारा वहन किए गए सभी खर्चों, लागतों एवं प्रभारों सहित, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित करने द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की इस सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं चुकाते हैं, तो आप प्रत्याभृत आस्तियां छडाने के हकदार नहीं होंगे।

चल संपत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 15, दुप्लैक्स-।।, स्वर्णिम विहार, सेक्टर-82, नोएडा, जिला-जी.बी. नगर, यू.पी. में स्थित, बिक्री विलेख नं. 663, दिनांकित 18.02.2014, चौहद्दी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – सम्पत्ति नं. 14 और पूरब में – सम्पत्ति नं. 16, यह सम्पत्ति करम सिंह भाटी और उषा देवी के नाम पर है।

दिनांक : 21-01-2022 स्थान : नई दिल्ली

है'' तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी. भारतीय स्टेट बैंक

उम्मदि हाउसिंग फाइनेस प्रा.लि.

पंजीकृत कार्यालय: 318, डीएलएफ मैगनोलियास, सेक्टर-42, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम हरियाणा) -122002 तथा कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट 809-815, 8वीं मंजिल, टॉवर-ए, ईएमएएआ डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-61, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा) सीआईएन: U65922HR2016PTC057984.

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेत नीलामी बिक्री सचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है. को सचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 19.01.2022 को युएचएफपीएल के पक्ष में ऋण के एसाइनमेंट के अनुसार किया गया था, की बिक्री कम्पनी के बकायों की वसली के लिए ''जहां है जैसे है'', ''जो है यही

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो, सहित अचल सम्पत्ति का विवरण अरविंद नगर, ग्राम-घोंडा, संपत्ति संख्या V-144, खसरा नंबर - 26, छत के अधिकार सहित तीसरी मंजिल, वी-ब्लॉक, शिव मंदिर मार्ग, ओरिनेंटल मॉडल पब्लिक स्कूल के पास, दिल्ली -110053 का समस्त भाग

र्क्रजंदार ⁄रों तथा जमानती ⁄यों आरक्षित मृत ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि . सम्पत्ति की ईएमडी के नाम तथा पता 3. संविदा वृद्धि चेतन वर्मा, पुत्र नरेश चंद वर्मा और पुजा 1) नीलामी दिनांकः 24/02/2022 अपराह्न 12:00 से आरक्षित मुल्य **वर्मा पत्नी चेतन वर्मा** सभी निवासीः V- दोपहर 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के रु. 12,38,625/-144. गली नंबर 2. अरविंद नगर घोंडा गढी साथ जमा धरोहर राशि मेंडु, चेतन वर्मा इवेंट, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि रु. 123863 (भारत) -110053। 4/02/2022 अपराह्न 7:00 बजे (भा.मा.स.) तक। संविदा वृद्धि 3) निरीक्षण की तिथिः 5 और 6 फरवरी, 2022 के बीच रु. 20,000/- तथा इसके ऋण संख्या LXJNP01119-200007160. 1:00 पर्वाह से 4:00 अपराह (भा मा स ) LXINP03419-200007163 गुणक में रु. 1623149/- तथा 23/07/22 से पूर्ण भुगतान होने तक लागू भावी ब्याज

स्थान : दिल्ली अधिकृत प्राधिकार्र तिथि : 25.01.2022 उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा.लि

#### परिशिष्ट IV A नियम 8(6) का नियम देखे

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई- निलामी बिक्री सूचना। सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/ प्रभारित है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड (CIN:U65923DLC2006PLC150632) (सुरक्षित लेनदार द्वारा ) द्वारा रचनात्मक कब्जा लिया जा चुका है, को 28.02.2022 को दोपहर 02.00 से 04.00 बजे तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में 5 मिनिट के अमर्यादित स्वचालित एक्सटेंशन के साथ) ''जहां है", ''जैसा है", और ''जो कुछ भी है", तथा ''बिना किसी समर्थन के आधार पर" ऋण खाता नं. HLLACHD00304276 के लिए रू.4,58,96,014/- (रुपए चार करोड़ अट्टावन) लाख छियानवे हजार चौदह मात्र) के लिए 20.01.2022 तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागूभावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ 21.01.2022 से प्रभावी जो न्यू फिरोजपुर फ़ाजिल्का ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उनके निर्देशकों द्वारा), रमेश चंदर नागपाल, मुनीश कुमार नागपाल उर्फ मुनीश उर्फ मनीष नागपाल और सीमा नागपाल पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

उक्त संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य रू.5,27,00,000 /- (रुपए पाँच करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) रू.52,70,000/ - (रुपए बावन लाख सत्तर हजार मात्र) यानि आरक्षित मुल्य का 10% (दस प्रतिशत) होगा और यह DD/RTGS/NEFT अथवा अन्य किसी उचित बैंकिंग चैनल द्वारा ऑनलाईन टेंडर जमा करने से पहले इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम, खाता नं.00950400000563, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ (IFSC: BARB0CONNAU), बी3, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -11001 शाखा, ऑनलाइन सार्वजनिक निलामी में भाग लेने के लिए निविदा प्रस्तुत करने से पहले देय होगा और सफल बोलीदाता बोली के समय स्वीकृती पर बिक्री मुल्य राशि का 25% (ई - निलामी में भाग लेने के लिए आरक्षित मूल्य का 10% कम करके)का तुरंत भुगतान करेगा यानि उसी दिन या उसके अगले कार्य दिवस के बाद नहीं होगा। अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनोंके भितर बिक्री मुल्य का बकाया जमा कराना होगा।

अचल संपति(यों) का वर्णन

एस.सी.ओ.339 - 340 की तल मंजिल और बेसमेंट का 50 % भाग, मापित 287.50 स्के.यार्डस (120.2 स्के.मी.), सीपीएल नं. 3389, सेक्टर 35-B में स्थित, चंडीगढ़ - 150035 (पंजाब)।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट में दिए गए लिंक यानि www.indiabullscommercialcredit.com और www.auctionfocus.in का संदर्भ ले।

दिनांक : 20.01.2022 स्थान : चंडीगढ़

दिनांकः 24.01.2022

स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड

# MGF दि मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाऊस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 फोनः 23272216-18, 23276872 फैक्स नं. 23274606 र्डमेलः mgfltd@hotmail.com, वेबसाइटः http://www.mgfltd.com CIN No.: L74899DL1930PLC000208

सूचना एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 29 और 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक **मंगलवार**, 8 फरवरी, 2022 को पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाऊस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में होगी, जिसमें आईएनडी-एएस नियमों के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौमाही हेत स्वतंत्र एवं संगठित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों और लेखा परीक्षक की सीमित समीक्षा रिपोर्ट के तहत

सेबी (इनसाइंडर ट्रेडिंग के निषेद्ध) विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रतिभूतियों से निपटने के लिये ट्रेडिंग विंडों पहले से ही शनिवार 1 जनवरी 2022 से कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौमाही के स्वतंत्र एवं संगठित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटों तक बंद रहेगी।

उपरोक्त बैठक का परिणाम बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com जहां पर कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट पर www.mgfltd.com पर भी उपलब्ध होगा।

बोर्ड के आदेशानुसार दि मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड के लिए (एम. के. मदान) स्थानः नई दिल्ली उपाध्यक्ष एवं कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

🞇 VIKAS ECŐTECH LTD.

दिनांक: 24 जनवरी, 2022

[CIN: L65999DL1984PLC019465] पंजीकृत कार्यालय: 34/1, विकास अपार्टमेंट, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026 दुरभाष 011-43144444 | वेब: www.vikasecotech.com | ई-मेल: cs@vikasecotech.com पोस्टल बैलेट की सूचना तथा ई-मतदान जानकारी

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि समय–समय पर संशोधित की गई कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशास नियमावली 2014 के नियम 20 एवं 22 के साथ पिठत कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 और ऐसी ही अन्य लाग विधि—व्यवस्थाओं के अनुसार कंपनी ने 25 जनवरी 2022 को पोस्टल बैलेट सूचना(ओं) दिनांकित 17 जनवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से केवल उन अंशधारकों को प्रेषित कर दिया है और प्रेषण-कार्य पूर्ण कर दिया है, जिनकी ईमेल आईडी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ पंजीकृत हैं।

विकास ईकोटेक लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों का अनुमोदन जो है वह ई-मतदान सहित पोस्टल बैलेट के माध्यम से निम्नलिखित संकल्पों के लिए किया जा रहा है:

कोविड—19 महामारी के प्रकोप के कारण देश में अनेक स्थानों पर लोगों के आवागमन पर लगाए ग निरंतर प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र सं 20/2021 दिनांकित 8 दिसंबर 2021 द्वारा अपने समस्त अंशधारकों को ई–मेल द्वारा पोस्टल बैलेट सूचना(एं) सहित सूचना प्रेषित करने की समयसीमा को 30 जून 2022 तक विस्तारित कर दिया गया

है। अतः अब यहां सूचनाओं अथवा पोस्टल बैलेट प्रपत्रों की भौतिक प्रतियां प्रेषित नहीं की जाएंगी। सदस्यों के मताधिकारों की संगणना, इस उद्देश्य हेतु निर्धारित कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार 2 जनवरी 2022 को व्यावसायिक घंटों के समापन के अनुसार उनके द्वारा धारित समता अंशों के आधार पर की जाएगी। कंपनी ने समस्त सदस्यों को ई-मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बात का

ध्यान रखें कि पोस्टल बैलेट और ई—वोटिंग दोनों ही माध्यम से होनेवाला मतदान शुक्रवार 28 जनवरी 2022 (प्रातः 9.00 बजे) को प्रारंभ होगा और इसका समापन शनिवार 26 फरवरी 2022 (सायं 5.00 बजे) को होगा, और इसके उपरांत ई-वोटिंग मॉड्यूल को असक्षम कर दिया जाएगा। जांचकर्ता के प्रतिवेदन के साथ पोस्टल बैलेट (दुरस्थ ई-मतदान सहित) का परिणाम सोमवार 28 फरवरी 2022 को पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा और परिणाम को स्टॉक एक्सचेंजों,

डिपॉजिटरीज और रजिस्ट्रार तथा अंश अंतरण अभिकर्ता को प्रेषित करने के अतिरिक्त कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ई-मतदान के बारे में किसी प्रश्न या पूछताछ की स्थिति में सदस्यगण www.evotingindia.com पर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ग्रहण कर

सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ई-मेल लिखकर भेज सकते हैं। कृते विकास ईकोटेक लिमिटेड हस्ता. 🖊 प्रशांत सजवानी

स्थानः दिल्ली दिनांकः 26 जनवरी, 2022

कंपनी सचिव

परिशिष्ट IV A नियम 8(6) का नियम देखे

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्तियो की बिक्री के लिए ई- निलामी बिक्री सूचना। सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सुचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/ प्रभारित है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** (CIN:L65922DL2005PLC136029) (सुरक्षित लेनदार द्वारा ) द्वारा रचनात्मक कब्जा लिया जा चुका है, को 11.02.2022 को दोपहर 02.00 से 04.00 बजे तक (निविदा दस्तावेज के संदर्भ में 5 मिनिट के अमर्यादित स्वचालित एक्सटेंशन के साथ) ''**जहां है",** ''**जैसा है", और ''जो कुछ भी है",** तथा ''बिना किसी समर्थन के आधार पर" ऋण खाता नं. HLAPPAC00285743 के लिए रू.6,86,89,000/- (रुपए छ) करोड़ छियासी लाख नवासी हजार मात्र) के लिए 20.01.2022 तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागूभावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ 21.01.2022 से प्रभावी जो गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्रा.लि., जगन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू एरा बिल्डटेक प्रा.लि., जीबीपी रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, विनोद कुमार गुप्ता, सतीश कुमार, प्रदीप कुमार, रमन कुमार, चिंकी, सोनम गुप्ता, पूनम रानी गुप्ता और रजनी गुप्ता पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाय है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

उक्त संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य रू.**7,90,00,000/- (रुपए सात करोड़ नब्बे लाख मात्र**) होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) रू.**.79,00,000/ - (रुपए उनासी लाख मात्र)** यानि आरक्षित मृल्य का 10% (दस प्रतिशत) होगा और यह DD/RTGS/NEFT अथवा अन्य किसी उचित बैंकिंग चैनल द्वारा ऑनलाईन टेंडर जमा करने से पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के नाम, खाता नं.32180585427, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ (IFSC: SBIN0009995) सीएजी शाखा,मुंबर्ड (महाराष्ट्र), ऑनलाइन सार्वजनिक निलामी में भाग लेने के लिए निविदा प्रस्तुत करने से पहले देय होगा और सफल बोलीदाता बोली के समय स्वीकृती पर बिक्री मूल्य राशि का 25% (ई - निलामी में भाग लेने के लिए आरक्षित मूल्य का 10% कम करके)का तुरंत भुगतान करेगा यानि उसी दिन या उसके अगले कार्य दिवस के बाद नही होगा। अचल संपत्ति की बिक्री की पृष्टि की तिथि से 15 दिनोके भितर बिक्री मल्य का बकाया जमा कराना होगा।

अचल संपति(यों) का वर्णन

प्लॉट नं.-119 , मापित 1460.42 स्के.यार्डस, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज़ 1, चंडीगड़- 160002

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तो के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट में दिए गए लिंक यानि www.indiabullshomeloans.com और www.auctionfocus.in का संदर्भ ले।

दिनांक : 20.01.2022 स्थान : चंडीगड़

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

(राशि लाख में

## जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

(सीआईएनः एल७४८९९डीएल१९९५पीएलसी०६४००७)

पंजीकृत कार्यालयः १२८, प्रथम तल, शिवा मार्किट, पीतमपुरा, उत्तरी दिल्ली-110034 दूरभाषः 011-47330330 । फैक्सः 011-0180-2653673 । ई-मेलः info@grmrice.com । वेबसाइटः www.grmrice.com

31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही हेतु समेकित एवं स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

(सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 47(1) (बी) के निबंधनों के अंतर्गत)

<b></b> .	विवरण	43	स्टैंड	अलोन			स	नेकित	न्त	
सं.		समाप्त तिमाही समाप्त अवधि समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही		समाप्त तिमाही समाप्त अवधि स		तिमाही	समाप्त अवधि	समाप्त वर्ष		
		31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2020 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2020 (लेखापरीक्षित)	31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	
1.	प्रचालनों से कुल आय	28,802.45	20,624.49	74,777.15	77,808.42	29,682.56	21,346.94	77,219.98	79,937.35	
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, आवधिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	3,293.32	1,098.28	8,791.17	4,915.37	3,564.80	875.40	9,328.32	5,884.97	
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	3,293.32	1,098.28	8,791.17	4,915.37	3,564.80	875.40	9,328.32	5,884.97	
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	2,456.53	814.94	6,570.24	3,662.73	2,666.47	592.06	6,943.43	4,541.82	
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि (कर पश्चात्) हेतु लाभ / (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	2,457.19	815.22	6,573.27	3,665.44	2,651.10	516.66	7,053.25	4,414.09	
6.	गैर-नियामक हित हेतु आरोप्य कुल व्यापक आय	8 9				41.48	- 1	63.49	19.48	
7.	नियामक हित हेतु आरोप्य कुल व्यापक आय	**		i i		2,609.62	516.66	6,989.76	4,394.61	
8.	चुकता समता अंश पूंजी (11.11.2021 तक प्रति अंश का अंकित मूल्य रु. 10/— और 12.11.2021 के बाद से रु. 2/—	1,200.00	368.95	1,200.00	394.00	1,200.00	368.95	1,200.00	394.00	
9.	पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	_	-	- 8	- "	-	_	- 7	_	
10.	आय प्रति अंश (10/— प्रत्येक का) (संचालित और बंद प्रचालनों हेतु)—	(* · · · · )	70	- 3	- 22			- 0		
	1. मूलः	4.10	7.36	54.88	32.96	4.45	5.35	58.00	40.87	
	2. तनुकृतः	4.10	7.36	54.88	32.96	4.45	5.35	58.00	40.87	
	3. सभी अवधियों हेतु रु. 2/— प्रति अंश के अंकित मूल्य के 6,00,00,000 समता अंशों पर आधारित समायोजित ईपीएस	4.10	1.36	10.98	6.10	4.45	0.99	11.60	7.57	

**टिप्पणियां**: उपरोक्त जो है वह सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक निष्कर्ष है। त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप जो हैं वह स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.grmrice.com पर उपलब्ध हैं। कृते जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

हस्ता./-

अतुल गर्ग (निदेशक) डीआईएनः 02380612 पंजाब नैशनल बैंक

punjab national bank

सर्किल सम्ब, नई विल्ली . २रा तल बिकान टाबर राजेन्द्र प्लेस, नई विल्ली-110008 ईमेल आईडी: cs4168@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.7.2021 जारी कर संबंधित ऋणधारकों 1) श्री प्रदीप कुमार, निवासी: फ्लैट नं. 36, 4था तल, श्री आवास अपार्टमेन्ट्स, एल एंड टी फ्लैट्स, सेक्टर 18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को उक्त सूचना की तिथि/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 22.7.2021 को रु. 27,30,813.96 (रु. सत्ताईस लाख तीस हजार आठ सौ तेरह एवं पैसे छियानवे मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 24 जनवरी, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-

धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों

का किसी भी तरह का व्यवसाय 22.7.2021 को रु. 27,30,813.96 (रु. सत्ताईस लाख तीस हजार आठ सौ तेरह एवं पैसे छियानवे मात्र) के साथ सम्पर्ण भगतान तक आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज आदि के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा

*	अचल सम्पात्तया का विवरण							
क्र. सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति के स्वामी)	मांग सूचना तिथि	संलग्न कब्जा सूचना तिथि	22.7.2021 को बकाया राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
1	सर्किल सस्त्र, नई दिल्ली	श्री प्रदीप कुमार	फ्लैट नं. 36, 4था तल, श्री आवास अपार्टमेन्ट्स, एल एंड टी फ्लैट्स, सेक्टर 18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110075 पर आवासीय सम्पत्ति पर ईक्यूएम		24.1.2022	रु. 27,30,813.96/−	नरेन्द्र सिंह चौहान	
र्ति	तेथि: 24.01.2022, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक							

Advertisement under Regulation 18 (7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended and Corrigendum to the Detailed Public Statement with respect to the open offer to the shareholders of

### **MEHAI TECHNOLOGY LIMITED**

Corporate Identification Number (CIN): L74110RJ2013PLC066946 Tel: 0141-2212101; Email: mehai.technology@gmail.com; Website: www.mehaitech.co.in

Open Offer for acquisition of 27,84,600 (Twenty Seven Lakhs Eighty Four Thousand Six Hundred Only) fully paid up equity shares of Rs.10/- each from equity shareholders of Mehai Technology Limited (hereinafter referred to as "Target Company" or "MEHAI") except parties to Share Purchase Agreement ("SPA") dated 18th October, 2021 by Dynamic Services & Security Limited (hereinafter referred to as "Acquirer" or "DYNAMIC") pursuant to and in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations, 2011. This Advertisement and Corrigendum is being issued by Finshore Management Services Limited, on behalf of Dynamic Services & Security Limited ("Acquirer") in respect of the open offer to acquire shares from the public shareholders of Mehai Technology Limited ("Offer Opening Public Announcement"). The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made on 26th October, 2021 in Financial Express, English Daily (in all editions), Jansatta, Hindi Daily (in all editions), Mumbai Lakshadeep, Marathi Daily (in Mumbai edition), Business Remedies, Hindi Daily (in Jaipur edition) and in Duranta Barta, Bengali Daily (in Kolkata edition).

The Offer Price is Rs.46.54/- (Rupees Forty Six and paise Fifty Four Only) per Equity Share. There has been no revision in the Offer

Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company: The committee of independent directors of the Target Company ("IDC") published its recommendation on the Offer on 18th January,

2022 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI SAST Regulations, 2011. There was no competing offer to

the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations, 2011. 4. Despatch of Letter of Offer to the public shareholders

The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date has been completed (either through electronic or physical mode) by 20th January, 2022. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer and parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) finshoregroup.com) from which the Public Shareholders can download/print the same.

#### 5. Instructions to the public shareholders 5.1 In case the shares are held in physical form

As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 3, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 1, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their respective Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details.

5.2 In case the shares are held in demat form

An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details. 5.3 Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:

- 5.3.1 Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer 5.3.2 In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by
  - providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), along with the following details: In case of physical shares: Name, address, distinctive numbers, folio nos, number of Equity Shares tendered/ In case of dematerialized shares: Name, address, number of Equity Shares tendered/withdrawn, DP name
  - DP ID number, Beneficiary account no., - and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of BSE through the Selling broker which will be made available by BSE before the

6. Any other changes suggested by SEBI in their comments to be incorporated.

closure of the Tendering Period.

8. Details regarding the status of the Statutory and other approvals

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 2nd November 2021 ("Draft Letter of Offer"). SEBI, vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/OW/1584 dated 11th January, 2022, issued its commer on the Draft Letter of Offer. These comments have been incorporated in the Letter of Offer 7. Any other material change from date of the Public Announcement

To the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required by the Acquirer to acquire the equity shares

tendered pursuant to this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the

closure of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals. The Acquirer will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of

Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations, 2011. 9. Corrigendum to the DPS: i) The Point D (D.2) of the Detailed Public statement has to be read as- "The Acquirer has entered into the SPA on 18th October 2021 whereby the Acquirer has agreed to acquire 77,06,100 fully paid-up equity shares of face value Rs.10/- each of the Target Company at a price of Rs. 2/- per Equity Share ("Sale Shares"), which constitutes 71.95% of the total issued, subscribed, paid-up

equity share capital and voting capital of the Target Company." Change in contact details of Acquirer:

Website: https://dssl.ind.in/

Email: cs@dssl.ind.in

10. Schedule of Activities:

The schedule of major activities under the Offer is set out below:

Nature of the Activity	Original schedule of disclosed in the draf		Revised Schedule	of Activities	
	Date	Day	Date	Day	
Date of Public Announcement	18th October, 2021	Monday	18th October, 2021	Monday	
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	26th October,2021	Tuesday	26th October,2021	Tuesday	
Filing of draft letter of offer with SEBI along with soft copies of Public Announcement and detailed Public Statement	2nd November,2021	Tuesday	2nd November,2021	Tuesday	
Last date for a competing offer*	18th November,2021	Thursday	18th November,2021	Thursday	
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	26th November,2021	Friday	11th January, 2022***	Tuesday	
Identified Date**	30th November,2021	Tuesday	13th January, 2022	Thursday	
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the public shareholders of the Target Company as on the identified Date	7th December, 2021	Tuesday	20th January, 2022	Thursday	
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size $$	10th December,2021	Friday	25th January, 2022	Tuesday	
Last date by which the recommendation of the committee of independent directors of the Target Company will be published.	9th December, 2021	Thursday	24th January, 2022	Monday	
Date of public announcement for opening of the Offer in the newspapers where the DPS has been published.	13th December,2021	Monday	26th January, 2022#	Wednesda	
Date of Commencement of tendering period	14th December,2021	Tuesday	28th January, 2022	Friday	
Date of Closing of tendering period	27th December,2021	Monday	10th February, 2022	Thursday	
Last date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/return of unaccepted Equity Shares.	10th January, 2022	Monday	24th February, 2022	Thursday	

\*\* Identified date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All shareholders (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer and Seller) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer. \*\*\*actual date of receipt of SEBI final observations

On 27th January, 2022, there is no publication, hence this advertisement is published on 26th January, 2022

11. Other information

The Acquirer accepts full responsibility for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI SAST Regulations, 2011 and for the information contained in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum. This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum would also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in

ssued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

\*There was no competing offer for the Acquirer's Offer.



Finshore Management Services Limited, Anandlok Block A, Room-207, 227, AJC Bose Road, Kolkata-700020 Tel: +91- 033-22895101/9831020743 Website: www.finshoregroup.com Investor Grievance email id: ramakrishna@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185

quirer	
namic Services & Security Limited	
ı	

Sd/-**Managing Director** Date: 25<sup>th</sup> January, 2022

www.readwhere.com

Registered Office: Village Tipra, P.O Barotiwala. NOTICE Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held at 12.00

and nine months ended December 31, 2021. BSE website at www.bseindia.com. For Jai Mata Glass Limited

ऋण वस्ती न्यायाधिकरण-।। दिल्ली चतर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

प्रतिवादी (1) गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्रा. लि., 69 भतल, मौसम विहार, परवाना रोड के पास, नई

बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301 (2) श्री मलुक नगर पुत्र स्वर्गीय आर डी नगर, निवासी डी3/10 वसंत विहार साउथ वैस्ट दिल्ली-110057 और: सी-4 / 17 सफदरजंग

201301 और: एच 3, प्रथम तल, लक्ष्मी नगर (4) श्री संजीव कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी सी 164 मन् अपार्टमेंट मयूर विहार फेज- ।, पूर्व, दिल्ली - 110091, और: बी-43,

(5) श्री मनोज कुमार रे पुत्र श्री नरेंद्र प्रसाद रे ए 504 वर्धमान अपार्टमेंट एमवी एक्सटेंशन फेज- ।, ईस्ट, दिल्ली-110091, और: फ्लैट न 604 टॉवर 4 कॉमन वेल्थ गेम्स, गाँव नई दिल्ली, दिल्ली - 110090, और: ए 218 मंगल अपार्टमेंट वसंधरा एन्यलेव ईस्ट, दिल्ली

मौसम विहार ईस्ट, दिल्ली - 110051, और दकान नं. 61 द्वितीय तल, शिव आर्केड, आचार्य 110091, और: आर19 तृतीय तल मेन शकरपुर विकास मार्ग ईस्ट, दिल्ली – 110092, और: प्लॉट नं. 9, सेक्टर 75, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर

(8) मैसर्स मैक्सब्लिस कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड एस 378 स्कूल ब्लॉक शकरपुर ईस्ट, दिल्ली –110093, और सी67 प्रथम तल, मदर डेयरी 110092, और जीएच 17 गोल्फ सिटी सेक्टर जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये 122,67,34,404.70 (रूपये एक सी बाईस करोड सडसठ लाख चौतीस हजार चार सौ चार और पैसे सत्तर मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से

होने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी

(ii) "रजिस्ट्रार / रिकवरी ऑफिसर—। / और रिकवरी ऑफिसर-।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की तारीख के लिए ''मीटिंग आईडी'' और ''पासवर्ड'' अगली तिथि से एक दिन पहले डीआरटी के अधिकारिक

(iii) किसी भी जानकारी हेत्, एडवोकेट्स/ पात्रगण संबंधित अधिकारी से फोन 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर

प्राधिकरण के आदेशानुसार, सहायक रजिस्ट्रार ऋण वसूली प्राधिकरण - 11, दिल्ली

#### क्लिओ इन्फोटेक लिमिटेड

सीआयएन:एल६५९९०एमएच१९९२पीएलसी०६७४५० नोंदणीकृत कार्यालय: ९०१-९०२, ९वा मजला, ॲटलांटा सेंटर, उद्योग भवन समोर, सोनावाला रोड,

गोरेगाव (पुर्व), मुंबई. दूर:10२२-४३२११८६१, फॅक्स:९१२२४३२११८७५

#### ई-मेलः clio\_infotech@yahoo.com | वेबसाइट: www.clioinfotech.com ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिता अलेखापरिक्षित

वित्तीय निष्कषाचा अहवाल					
		(रु.लाखात, ईप	पीएस व्यतिरिक्त)		
तपशील	संपलेली तिमाही	संपलेली नऊमाही	संपलेली तिमाही		
	३१.१२.२०२१ अलेखापरिक्षित	३१.१२.२०२१ अलेखापरिक्षित	३१.१२.२०२० अलेखापरिक्षित		
कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न	2.8८	0.39	2.00		
कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (कर, अपवादात्मक बाब आणि विशेष साधारण बाबपुर्व)	-98.22	-80.50	-9.59		
करपूर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाब आणि विशेष साधारण बाबनंतर)	-98.22	-80.50	-9.59		
करानंतर कालावधीकरिता नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाब आणि विशेष साधारण बाबनंतर)	-98.94	-80.50	-9.52		
कालावधीकरिता एकूण सर्वंकष उत्पन्न (कालावधीकरिता एकत्रित नफा/(तोटा) (करानंतर) व इतर सर्वंकष उत्पन्न (करानंतर)	-98.92	-80.48	-9.50		
भरणा केलेले समभाग भांडवल (दर्शनी रु.१०/ – प्रत्येकी)	9909.90	9909.90	9909.90		
उत्पन्न प्रतिभाग (वार्षिकीकरण नाही) १. मूळ व सौमिकृत (विशेष साधारण बाबपुर्व) २. मूळ व सौमिकृत (विशेष साधारण बाबनंतर)	-0.93 -0.93	-0.30 -0.30	-0.09 -0.09		
टिप:					

ठिकाण: मुंबई

सेबी (लिस्टिंग ॲण्ड अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या नियम ३३ अन्वये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) सह सादर करण्यात आलेली त्रैमासिक अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचे सविस्तर नमुन्यातील उतारा आहे. वित्तीय निष्कर्षाचे संपूर्ण नमुना खालील वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

. बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com . कंपनीच्या www.clioinfotech.com

संचालक मंडळाच्या आदेशान्व क्लिओ इन्फोटेक लिमिटेडकरित सही/ सरेश बाफन दिनांक : २५.०१.२०२२ व्यवस्थापकीय संचालव

डीआयएन:०१५६९१६३

tisement under Regulation 18 (7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended and Corrigendum to the Detailed Public Statement with respect to the open offer to the shareholders of

#### MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

Registered Office: B-40, Sudarshanpura Industrial Area (extension), Jaipur-302006, Rajasthan, India Corporate Identification Number (CIN): L74110RJ2013PLC066946 Tel: 0141-2212101; Email: mehai.technology@gmail.com;

Website: www.mehaitech.co.in

Open Offer for acquisition of 27,84,600 (Twenty Seven Lakhs Eighty Four Thousand Six Hundred Only) fully paid up equity shares of Rs.10/- each from equity shareholders of Mehai Technology Limited (hereinafter referred to as "Target Company" or "MEHAI") except parties to Share Purchase Agreement ("SPA") dated 18th October, 2021 by Dynamic Services & Security Limited (hereinafter referred to as "Acquirer" or "DYNAMIC") pursuant to and in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations, 2011.

This Advertisement and Corrigendum is being issued by Finshore Management Services Limited, on behalf of Dynamic Services 8

Security Limited ("Acquirer") in respect of the open offer to acquire shares from the public shareholders of Mehai Technology Limited ("Offer Opening Public Announcement"). The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made on 26th October, 2021 in Financial Express, English Daily (in all editions), Jansatta, Hindi Daily (in all editions), Mumbai Lakshadeep, Marathi Daily (in Mumbai edition), Business Remedies, Hindi Daily (in Jaipur edition) and in Duranta Barta, Bengali Daily (in Kolkata edition) 1. Offer Price:

The Offer Price is Rs.46.54/- (Rupees Forty Six and paise Fifty Four Only) per Equity Share. There has been no revision in the Offer

Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company:

The committee of independent directors of the Target Company ("IDC") published its recommendation on the Offer on 18th January 2022 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011.

The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI SAST Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations, 2011.

Despatch of Letter of Offer to the public shareholders.

The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date has been completed (either through electronic or physical mode) by 20th January, 2022. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer and parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance-cum Acknowledgment) is also available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.sebi.gov.in) and the Website of the Offer (www.sebi.gov.in) and the Offer (www.seb finshoregroup.com) from which the Public Shareholders can download/print the same

#### 5. Instructions to the public shareholders

#### 5.1 In case the shares are held in physical form

As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 3, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 1, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their respective Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details.

#### 5.2 In case the shares are held in demat form

An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details.

5.3 Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:

Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), along with the following details: In case of physical shares: Name, address, distinctive numbers, folio nos, number of Equity Shares tendered

In case of dematerialized shares: Name, address, number of Equity Shares tendered/withdrawn, DP name DP ID number, Beneficiary account no.,

and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of BSE through the Selling broker which will be made available by BSE before the

Any other changes suggested by SEBI in their comments to be incorporated.

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 2nd November

2021 ("Oraft Letter of Offer"). SEBI, vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/OW/1584 dated 11th January, 2022, issued its com on the Draft Letter of Offer. These comments have been incorporated in the Letter of Offer. Any other material change from date of the Public Anno

Details regarding the status of the Statutory and other approvals

To the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required by the Acquirer to acquire the equity shares tendered pursuant to this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the closure of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary application. for such approvals. The Acquirer will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations, 2011.

Corrigendum to the DPS:

i) The Point D (D.2) of the Detailed Public statement has to be read as- "The Acquirer has entered into the SPA on 18th October, 2021 whereby the Acquirer has agreed to acquire 77,06,100 fully paid-up equity shares of face value Rs.10/- each of the Target Company at a price of Rs. 2/- per Equity Share ("Sale Shares"), which constitutes 71.95% of the total issued, subscribed, paid-up equity share capital and voting capital of the Target Company."

ii) Change in contact details of Acquirer: Website: https://dssl.ind.in/

Email: cs@dssl.ind.in

#### 10. Schedule of Activities:

The schedule of major activities under the Offer is set out help

The schedule of major activities under the Offer is set out below:							
Nature of the Activity	Original schedule o disclosed in the draft		Revised Schedule	of Activities			
	Date	Day	Date	Day			
Date of Public Announcement	18th October, 2021	Monday	18th October, 2021	Monday			
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	26th October,2021	Tuesday	26th October,2021	Tuesday			
Filing of draft letter of offer with SEBI along with soft copies of Public Announcement and detailed Public Statement	2nd November,2021	Tuesday	2nd November,2021	Tuesday			
Last date for a competing offer*	18th November,2021	Thursday	18th November,2021	Thursday			
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	26th November,2021	Friday	11th January, 2022***	Tuesday			
Identified Date**	30th November,2021	Tuesday	13th January, 2022	Thursday			
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the public shareholders of the Target Company as on the identified Date	7th December, 2021	Tuesday	20th January, 2022	Thursday			
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	10th December,2021	Friday	25th January, 2022	Tuesday			
Last date by which the recommendation of the committee of independent directors of the Target Company will be published.	9th December, 2021	Thursday	24th January, 2022	Monday			
Date of public announcement for opening of the Offer in the newspapers where the DPS has been published.	13th December,2021	Monday	26th January, 2022#	Wednesday			
Date of Commencement of tendering period	14th December,2021	Tuesday	28th January, 2022	Friday			
Date of Closing of tendering period	27th December,2021	Monday	10th February, 2022	Thursday			
Last date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/return of unaccepted Equity Shares.	10th January, 2022	Monday	24th February, 2022	Thursday			

\*There was no competing offer for the Acquirer's Offer

\*\* Identified date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offe would be sent. All shareholders (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer and Seller) and eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

\*actual date of receipt of SEBI final observations "On 27th January, 2022, there is no publication, hence this advertisement is published on 26th January, 2022

#### 11. Other information

The Acquirer accepts full responsibility for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI SAST Regulations, 2011 and fo the information contained in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendu

This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum would also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in ued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

# d

Finshore Management Services Limited, Anandlok Block A, Room-207, 227, AJC Bose Road, Kolkata-700020

Tel: +91- 033-22895101/9831020743

Website: www.finshoregroup.com Investor Grievance email id : ramakrishna@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185

### Dynamic Services & Security Limited

**Managing Director** 

Place: Kolkata Date: 25<sup>th</sup> January, 2022

#### **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that the following Share certificate as mentioned below, standing in the name of <mark>Shantaram Ramchandra</mark> Bhosle of Flat No.4685 of Shram Safalya Co-operative Housing Society Ltd. Bldg No.153, Kannamwar Nagar-1, Vikhroli (East), Mumbai-400083 have been reported Lost / Stolen and that Application for issue of Duplicate Certificate in lieu of the Lost / Stolen

the Society. Any individual / Corporate having any objection against issue of the Duplicate Share Certificate to Shantaram Ramchandra Bhosle many convey his / their objection in writing to the society within a period of 15 days of publication of this notice. Details of the Share certificate is as follows.

Share Certificate has been made with

Flat No.4685, Share Certificate Distinctive No.61-65 Date: 26.01.2022

Place: Mumbai For and behalf of Shram Safalya Co-operative Housing Society Ltd. Sd/-

#### **PUBLIC NOTICE**

Late Chandramohan Srivastava a member of New Mercury 'A' coop Housing Society Ltd having address at Siddhivinayak Complex, Near Joggers Park, Chikkuwadi, Borivali (W) Mumba 400092 and owner of Flat No 701-A deceased on 19th November 2021.

He had nominated his daughters Ms Priyanka Srivastava, Ms Anila Srivastava, Mrs Tanvi Srivastava Sethi being the legal heirs of the above mentioned property. Society has received a request on

18.12.2021 to transfer 5 shares Nos 00076 TO 00080 in their names. Any person having claims

regarding sale, mortgage, charge, trust or otherwise are requested to inform the same in writing along with the proof to the society within 14 days of the publication of this

New Mercury 'A' CHS Ltd, Sd/ Narendra Desai (Hon. Secretary) Mob no: 9820499040

For and on behalf of

Place:Mumbai Date: 26.01.2022 HDB SERVICES एचडीबी फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड

#### **नोंदणीकृत कार्यालय:** राधिका, २रा मजला, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपूरा, अहमदाबाद, गुजरात-३८०००९ क्षेत्रिय कार्यालय: १ला मजला, विल्सन हाऊस, जुना नागरदास मार्ग, अंधेरी (पु.), मुंबई-४०००६९ ताबा सूचना

न्याअर्थी: खालील स्वाक्षरीकर्ता हे सिक्यरीटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्टक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस ॲन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ अंतर्गत **एचडीबी फायनान्शियल सर्विसेर** लिमिटेडचे प्राधिकृत अधिकारी आहेत आणि कर्ज खाते क्र.१५१४९२० बाबत सिक्युरिटी इंटरेस् (एनफोर्समेन्ट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ सहवाचिता कलम १३(१२) अन्वये असलेल्या अधिकाराअंतर्ग यांनी **दि.**०७/०७/२०२० रोजी वितरीत केलेल्या मागणी सूचनेनुसार कर्जदार **किन्नी फार्म हाऊ**र अंण्ड रिसॉर्टस आणि सहकर्जदार/जामीनदार आयझॅक मॉरीस किन्नी, मॉरीस बेन्नी किन्नी भारथी मॉरीस किन्नी यांना कर्ज खाते क्र.१५१४९२० बाबत सदर सचना प्राप्त तारखेपासन ६ दिवसांच्या आत दिनांक ०४/०७/२०२० रोजीची देय रक्कम रु.१,०६,१३,७७५.१४ (अक्षरी एक कोटी सहा लाख तेरा हजार सातशे पंच्याहत्तर आणि पैसे चौदा फक्त) प्रासंगिक खर्च, शुल्क व खर्च ई. सह एकत्रित वास्तविक रक्कम मिळेपर्यंतच्या तारखेपर्यंत करारदराने पुढील व्याजासहीत जमा

कर्जदार व नमूद इतर हे वर नमुद केलेली रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरले असून कर्जदार व वर नमूद इतर वेशेषत:, आणि सर्वसामान्य जनतेस येथे सुचित करण्यात येते की, सदर कायद्याच्या कलम १४% त्यांना प्राप्त असलेल्या अधिकारांअंतर्गत अप्पर मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांनी खाली नम् ठिकाणी असलेल्या प्रतिभूत मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी सहाय्यक निबंधक, न्यायालयाचे बोरिवर्ल न्त्र, पुनर्प सहाय्यक निबंधक, न्यायात्याचे बोरिवली केंद्र, मुंबई यांनी दिनांक २० जानेवारी, २०२२ रोजी खाले नमुद केलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेतला व एचडीबी फायनास्त्रियळ सर्विसेस लिमिटेड, मुंबई यांचे प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे त्याचरोजी मालमत्तेचा ताबा हस्तांतरीत केला.

विशेषतः कर्जदार, सह-कर्जदार/जामिनदार व सर्वसामान्य जनतेस येथे सावध करण्यात येते की, सद ालमत्तेबाबत कोणताही व्यवहार करू नये आणि केल्यास तो व्यवहार **एचडीबी फायनान्शिय** सर्विसेस लिमिटेड कर्ज खाते क्र.१५१४९२० बाबत दिनांक ०४/०७/२०२० रोजीची देय रक्का रु.१,०६,१३,७७५.१४ (अक्षरी एक कोटी सहा लाख तेरा हजार सांतर्श पंच्याहत्तर आणि पैसे चौदा फक्त) तसेच सदर मागणी सूचना प्राप्त तारखेपासून प्रासंगिक खर्च, शुल्क व खर्च इत्यादीस एकत्रित वास्तविक रक्कम मिळेपर्यंतच्या तारखेपर्यंत करारदरानुसार पुढील व्याज रकमेसह **एचडीबी** . **कायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड**च्या आकारांना अधीन राहील

प्रतिभत मालमत्ता सोडविण्याकरीता. उपलब्ध वेळेच्या संबंधीत सदर कायद्याच्या कलम १३ चे उपकल (८) च्या तरतूर्दीकडे कर्जदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

#### स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

रो हाऊस/प्लॉट क्र.१३० (क्षेत्रफळ ६३ चौ.मी.), तळमजला + १ला मजला, आरएससी १३ सेक्टर क्र.८, चारकोप-४, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई-४०००६७ येथील मालमत्तेचे सर्व भा व खंड आणि चतुसिमा: पुर्वेस: म्हाडा लेआऊट; पश्चिमेस: आतील रस्ता; उत्तरेस: प्लॉट क्र.१३१, दक्षिणेस: प्लॉट क्र.१२९.

सही/- प्राधिकृत अधिकारी एचडीबी फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेडकरिता ठिकाण : मुंबई दिनांक: २५.०१.२०२२

### ॲस्टेक लाडफसायन्सेस लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन) : L99999MH1994PLC076236 नोंदणीकृत कार्यालय : गोदरेज वन, ३ रा मजला, पिरोजशानगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र.

वेबसाइट : www.astecls.com दूर : ०२२ - २५१८ ८०१०, फॅक्स : ०२२ २२६१ ८२८९ **ई-मेल :** astecinvestors@godrejastec.com दि. ३१.१२.२०२१ रोजी संपलेली तिमाही व नऊमाहीकरिताच्या अलेखापरीक्षित

एकत्रित वित्तीय निष्कर्षांच्या अहवालाचा सारांश

अ.			तिमाहीअखेर		संपलेल्या कालावधीकरिता वर्ष ते तारीख आकडेवारी		वर्षअखेर
अ. क्र.	तपशील	३१.१२.२१	३०.०९.२१	38.82.20	३१.१२.२१	38.82.20	३१.०३.२१
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
१	परिचालनातून एकूण उत्पन्न	१७,५३१.३०	१०,३४७.३७	११,९२८.०३	४०,८२४.७१	३८,९३२.३६	५६,२७९.३२
2	कालावधीकरिता निव्वळ नफा/ (तोटा) (कर व अपवादात्मक व अतिविशेष बाबींपूर्व #)	३,३२०.७३	१,२१७.९२	१,१२७.५६	६,२८२.२८	५,६८९.४५	८,९०७.०९
m	करपश्चात कालावधीकरिता निव्वळ नफा/ (तोटा) (अपवादात्मक व अतिविशेष बाबींपश्चात #)	२,४७५.२५	১৶.৶৹	७०६.३५	४,६८२.११	४,११०.३५	६,५०६.८८
8	कालावधीकरिता एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न (कालावधीकरिता (कर व अनियंत्रित व्याजापश्चात) नफा/(तोटा) व अन्य सर्वसमावेशक उत्पन्न (करपश्चात) यांचा समावेश)	२,४७०.७४	९०२.९९	७००.२९	४,६६७.७९	४,०९३.७८	६,४८६.४९
ų	समभाग भांडवल (दर्शनी मूल्य प्रति शेअर रु. १०/-)	१,९५९.११	१,९५८.९१	१,९५७.८४	१,९५९.११	१,९५७.८४	१,९५८.७६
ĸ	गत वर्षाच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदामध्ये दर्शविल्यानुसार राखीव (पुनर्मूल्यांकन राखीव वगळता)						२८,९५९.०५
و	उत्पन्न प्रतिशेअर(दर्शनी मूल्य प्रति शेअर रु. १०/–) (अखंडित व खंडित परिचालनाकरिता) अवार्षिकीकृत)						
	१. मूलभूत	१२.६३	४.६३	३.६१	२३.८९	२१.००	33.73
	२. सौम्यीकृत	१२.६२	8.53	३.६०	२३.८८	२०.९७	३३.२१
स्थायी	अलेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांचे महत्त्वाचे वित्तीय मुद्दे :	:					(रु. लाखांत)
			तिमाहीअखेर	संपलेल्या कार	वर्षअखेर		

वर्ष ते तारीख आकडेवारी ३१.१२.२१ 30.09.79 ३१.१२.२० 38.88.88 39.97.70 ३१.०३.२१ (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) अलेखापरीक्षित) अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित (लेखापरीक्षित परिचालनातुन एकुण उत्पन्न ११,९२८.०३ ५६,२५४.२ १७,५३१.३८ १०,३४७.३७ ४०,८२४.७१ ३८,९०७.३८ करपूर्व नफा 9,784.60 ६,२७६.२६ 4.642.63 ८,८६७.१। ३,३१८.७३ 8,874.36 करपश्चात नफा २,४७३.७४ ९०६.३१ ४,६७७.५४ ६,४६९.२५ 608.60 ४,०७५.२६ एकुण सर्वसमावेशक उत्पन्न (करपश्चात) २,४६९.३३ ९०१.९१ 600.50 ४,६६४.३२ ४,०६१.६० ६,४५१.६३

ए) वरील निर्देशित विवरण हे भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजेसकडे दाखल करण्यात आलेल्या दि. ३१ १२ २०२१ रोजी संपलेली तिमाही व नुकमाहीकरिताच्या स्थायी व एकत्रित अलेखापरीक्षित विनीय निष्कर्षांच्या विस्तृत प्रारूपाचा सारांश आहे. दि. ३१.१२.२०२१ रोजी संपलेली तिमाही व नऊमाहीकरिताच्या स्थायी व एकत्रित अलेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांचे संपूर्ण प्राह्ण बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट (www.bseindia.com) व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट (www.nseindia. com) वर उपलब्ध आहे तसेच ती कंपनीची वेबसाइट (www.astecls.com) वरही उपलब्ध आहे.

बी) वरील वित्तीय निष्कर्षांचे लेखापरीक्षण समितीद्वारे पुनरावलोकन करण्यात आले असून कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे त्यांच्या मंगळवार, दि. २५.०१.२०२२ रोजी आयोजित सभेमध्ये त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांनी वरील निष्कर्षांचे मर्यादित पुनरावलोकन केले असून अस्धारित पुनरावलोकन मत व्यक्त केले आहे.

सी) गत वर्षादरम्यान कंपनीने यूरो १ च्या मूल्यावर त्यांची एक उप कंपनी ॲस्टेक यूरोप एसपीआरएल मधील त्यांच्या समभागांच्या हिश्श्याची विक्री केली आहे. डी) भारतीय संसटेने सामाजिक सरक्षा. २०२० वरील संद्रितेस मान्यता दिली आहे ज्याचा रोजगार व व रोजगारपञ्चात लाभांसंदर्भात कंपनीच्या अंगदानावर प्रभाव पडेल. श्रम व रोजगार मंत्रालयाने दि. १३.११.२०२० रोजी सामाजिक सुरक्षा, २०२० संहितेकरिता नियमांचा आराखडा जारी केला आहे व मंत्रालयाद्वारे भागधारकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत ज्या विचाराधीन आहेत. संबंधित नियम अधिसूचित झाल्यावर कंपनी त्यांचा प्रभाव व त्याच्या मूल्याचे निर्धारण करील व लाग झालेल्या संहितेच्या कालावधीमधील त्यांच्या वित्तीय अहवालावरील योग्य तो प्रभाव दर्शवील व वित्तीय प्रभावावरील संबंधित नियम प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत

# अपवादात्मक बाबी आयएनडी एएस नियमांच्या अनुषंगाने नफा-तोटा पत्रकात जुळवून घेण्यात आल्या आहेत.

ॲस्टेक लाइफसायन्सेस लिमिटेडच्या संचालक मंडळाच्या आदेशादा अशोक व्ही. हिरेमठ व्यवस्थापकीय संचालव डीआयएन: ००३४९३४५



पूनावाला हौसिंग फायनान्स लि. (पूर्वीची मॅग्ना हौसिंग फायनान्स लि.) क्षेत्रिय कार्यालय : ६०२, ६वा मजला, झिरो वन आयटी पार्क, अ.क.७९/१, घोरपडी, मुंढवा रोड, पुणे – ४११०३६.

शाखा कार्यालय : युनिट २०४/२०५, लोटस पार्क, रोड क्र.१६, वागळे इस्टेट, ठाणे – ४०० ६०४.

#### ई-लिलाव-विक्री सूचना

सिक्युरीटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ (यापुढे कायदा म्हणून संदर्भ) अंतर्गत प्रतिभूत मालमत्तेची विक्री.

सर्वसामान्य जनतेस आणि खाली नमुद कर्जदार/सहकर्जदार/जामिनदार यांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, खाली नमुद मालमत्ता **मॅग्मा हीसिंग फायनान्स लिमिटेड**, आता स्थापना प्रमाणपत्रानुसार **पूनावाला होसिंग फायनान्स लिमिटेड** म्हणून पुर्ननामित यांच्याकडे तारण असून त्याचा कायधाच्या कलम १३(४) अन्वये कंपनीच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी ताबा घेतलेला असून कंपनीची थकबाकी रक्कम तसेच त्यावरील लागू व्याज, शुल्क व खर्च इत्यादी वसुलीकरिता खाली नमुद नियमानुसार ई–लिलावमार्फत विक्री गलमत्तेची सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रुल्स (यापुढे अधिनियम म्हणून संदर्भ) च्या नियम ८ व ९ अन्वये जसे आहे जेथे आहे, जसे आहे जे आहे आणि कोणत्याही परिणामाशिवाय विक्री केली जाईल.

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २५.०१.२०२२

१. कर्जदार/सह कर्जदार/ जामिनदाराचे नाव	मालमत्तेचे वर्णन व	<ol> <li>ई-लिलावाची दिनांक व वेळ २. इरठे रक्कम जमा करण्याची</li> </ol>	१. आरक्षित मूल्य (रू.लाखात)
२. मागणी सूचना दिनांक	मालमत्तेचे स्वरूप	शेवटची तारीख (इसारा रक्कम ठेव) ३.मालमत्तेच्या निरिक्षणाची	२. इसारा रक्कम (रू.लाखात)
३. एकूण देय + व्याज		तारीख व वेळ	
१. मनोज महन्ता, दिपिका शर्मा	फ्लॅट क्र.१०६, १ला मजला, ओम साई अपार्टमेंट,	१. ई-लिलावाची दिनांक व वेळ : ०३.०३.२०२२ (स.११ ते दु.२वा.)	१. आरक्षित मूल्य (रू.लाखात):
२. सूचना दिनांक : २४.०६.२०२१	संजय नगर, मानपाडा रोड, एस.क्र.८९, हिस्सा	२. इरठे रक्कम जमा करण्याची शेवटची तारीख (इसारा रक्कम ठेव) :	१२,२७,१८७.५/ – (रुपये बारा सत्तावीस
३. कर्जे क्र.: एचएम/०४५८/एच/१७/१००१६७	क्र.५पी, मौजे सागाव सागर्ली, डोंबिवली पूर्व, जिल्हा	०२.०३.२०२२ सायं.५वा. पूर्वी	हजार एकशे सत्त्याऐंशी आणि पैसे पाच फक्त)
४. एकूण देय : दिनांक २४.०६.२०२१ रोजी देय रक्कम			२. इरठे रक्कम (रू.लाखात)ः १,२२,७१८/-
रू.१४,६७,३८५.००/ – (रूपये चौदा लाख सद्सष्ट	४२१२०१ येथील तारण मालमत्तेचे सर्व भाग व	द्.४वा.)	(रुपये एक लाख बावीस हजार सातशे अठरा
हजार तीनशे पंच्याऐंशी फक्त) आणि मुक्ततेपर्यंत	खंड.		फक्त)
१३.३०% दराने व्याज.			

इच्छुक बोलीदारांना शाखा आणि लिलाबात ठेवलेल्या मालमत्तेला भेट देण्याचा आणि शुल्क, बोजा यासंबंधी आवश्यक माहिती मिळविण्याचा सल्ला दिला जातो. खरेदीदार स्वतःची चौकशी करेल आणि अतिरिक्त शुल्क, बोजा आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या हिताची खात्री करून घेईल आणि त्या सर्व बार्बीमध्ये स्वतःचे/स्वतःचे समाधान करेल. सर्व वैधानिक देय जसे की मालमत्ता कर, वीज देय आणि मालमत्तेशी संलग्न इतर कोणतेही देय असल्यास, ते यशस्वी बोलीदार/संभाव्य खरेदीदारांनी निश्चित केले पाहिजेत आणि अदा केले पाहिजेत. बोलीदार/संभाव्य खरेदीदारांना, त्यांच्या स्वतःच्या हितासाठी, बिड सबमिट करण्यापूर्वी वरील आणि वर नमूद केलेल्या मालमत्ता/मालमत्तेशी संबंधित इतर संबंधित तपशिलांच्या संदर्भात स्वतःच्या हितासाठी, बिड सबमिट करण्यापूर्वी वरील आणि वर नमूद केलेल्या मालमत्ता/मालमत्तेशी संबंधित इतर संबंधित तपशिलांच्या संदर्भात स्वतःच्या हितासाठी, बिड सबमिट करण्यापूर्वी वरील केली जाते

#### ई-लिलाव विक्रीच्या अटी आणि नियम:

लिलाव/विक्री ५ मिनिटांच्या अमर्यादित विस्तारासह वरील सारणीमध्ये नमूद केल्यानुसार https://DisposalHub.Com ऑनलाइन ई-लिलाव / बोली लावली जाईल.

इच्छुक बोलीदारांनी पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करणे आणि लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड आधीच प्राप्त करणे आवश्यक आहे, जे लिलाव सेवा प्रदात्याकडून ई-बिडिंगसाठी अनिवार्य आहे. मे. नेक्सेन सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड -२०३, दुसरा मजला, शी स्याम पॅलेस, सेक्टर: ४ आणि ५ क्रॉसिंग, रेल्वे रोड, गुरुग्राम-१२२ ००६ (संपर्क क्रमांक +९१-९३१००२९९३३/+९१-९८१००२९९२६/+९१-९२४४ २३३९३३) संपर्क ग्राहक सेवा वितरण (CSD) सेल क्र.(एम)+९१-९३१००२९९३३/ +९१-९८१००२९९२६ (दुर.)+९१-१२४ ४ २३३९३३. ईमेल आयडी: CSD@DisposalHub.Com. कृपया लक्षात घ्या की संभाव्य बोलीदार केवळ त्यांच्याकडूनच ई-लिलावाचे ऑनलाइन प्रशिक्षण घेऊ शकतात. इच्छुक खरेदीदार/बिडरने पूनावाला हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, बँक-आयसीआय बँक लि.च्या खात्यात एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी मार्गे इसारा रक्कम ठेव (इरठे) जमा करणे आवश्यक आहे. खाते क्रमांक-०००६५१०००४६० आणि आयएफएससी कोड-आयसीआयसी०००००६, २०, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता–७००००१ कोणतीही राष्ट्रीयकृत किंवा शेड्यूल्ड बँकेवर ०२/०३/२०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी काढलेले आणि त्यांचे नाव https://DisposalHub.Com वर नोंदवा आणि युजर आयडी आणि पासवर्ड मोफत मिळवा आणि सेवा प्रदात्याकडून ई–लिलावाचे प्रशिक्षण घ्या. वेबसाईटवर नोंदणी केल्यानंतर, इच्छुक खरेदीदार/बोलीदाराने खालील कागदपत्रांच्या प्रती अपलोड कराव्यात, ई–मेल आणि स्व–प्रमाणित हार्ड कॉपी (संबंधित व्यवस्थापक पूनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेड) **श्री. पंकज यादव** यांना पत्ता: युनिट-२०४/२०५, लोटस पार्क, रोड नं.१६, वागळे इस्टेट, ठाणे-४००६०४. मोबाईल क्र.:९७०२८९५५६९, ई-मेल pankaj.yadav@poonawallahousing.com वर पाठवणे आवश्यक आहे.

वेबसाइटवर प्रस्ताव/निविदा दस्तऐबजासह उपलब्ध असलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज करून लिलाव प्रक्रियेत ऑनलाइन ई-लिलाव सहभाग अनिवार्य आहे. बोलीदारांना त्यांच्या बोली जमा करण्यापूर्वी आणि ई-लिलाव विक्री प्रक्रियेत भाग घेण्यापूर्वी लिलाव विक्रीच्या तपशीलवार अटी व शर्तीसाठी https://DisposalHub.Com या वेबसाइटवर जाण्याचा सह्या दिला जातो. येथे नमद केल्याप्रमाणे ऑनलाइन बोली संस्थेच्या वेबसाइटवर होईल आणि निविदा/ई-लिलाव दस्तऐवजात समाविष्ट असलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन असेल. निविदा दस्तऐवज आणि लिलावासाठी तपशीलवार अटी आणि नियम https://DisposalHub.Com या वेबसाइटवरून डाउनलोड केले जाऊ शकतात किंवा ते पुनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या संबंधित शाखा कार्यालयातून देखील गोळा केले जाऊ शकतात. सोबत बोली फॉर्मची एक प्रत ऑनलाइन सादर केलेल्या संलग्नकासह (यूटीआर क्रमांकाचा उल्लेख देखील) संबंधित व्यवस्थापक श्री. पंकज यादव, मोबाईल क्र.:+९१-९७०२८९५५६९, कार्यालय दरध्वनी :+९१-९७०२८९५५६९, पुनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेड (पूर्वीची मॅग्मा हौसिंग फायनान्स लिमिटेड) पत्ता: युनिट-२०४/२०५, लोटस पार्क, रोड नं.१६, वागळे इस्टेट, ठाणे-४००६०४ यांना वर नमुद तारीख व वेळेपुर्वी सादर केले जाईल.

अधिक तपशिलांसाठी आणि प्रश्नांसाठी, अधिकृत अधिकाऱ्याशी संपर्क साधा, नाव शी. पंकज यादव मोबाईल:+९१-९७०२८९५५६९.

वरील अनुसूचीमध्ये प्रतिभूत मालमत्तेचे पुरेसे तपशील समाविष्ट करण्यासाठी योग्य काळजी घेण्यात आली आहे. या घोषणेतील कोणत्याही त्रूटी, चुकीचे विधान किंवा वगळत्यास अधिकृत अधिकारी जबाबदार असणार नाही.

स्रक्षित मालमत्ता केवळ राखीव किंमतीपेक्षा जास्त विकली जाईल. लिलाव राखीव किमतीच्या एका वाढीपासून सुरू होईल आणि बोलीदार त्यांच्या प्रस्तावामध्ये किमान रु.१०,०००/– (रुपये दहा हजार फक्त) वाढीव रकमेसह सुधारणा करून आपापसात बोली लावू शकतील वैध युजर आयडी आणि पासवर्ड धारण करणाऱ्या आणि एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारे इसारा रक्कमेची पृष्ठी केलेले देयक असणाऱ्या बोलीदारानाच ऑनलाइन ई-लिलावात भाग घेण्याची परवानगी असेल. कोणतेही कारण न देता कोणतीही किंवा सर्व निविदा

स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार प्राधिकृत अधिकाऱ्याने राखून ठेवला आहे. पुढे, कोणतेही कारण न देता, ई-लिलाव पुढे ढकलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा किंवा स्थिगित करण्याचा किंवा बंद करण्याचा किंवा ई-लिलावाच्या अटींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार अधिकृत अधिकाऱ्याने राखून ठेवला आहे, संबंध अंतिम असेल. खरेदीदार/बोलीदाराच्या बाजूने विक्रीची पृष्टी केली जाईल ज्याने त्याच्या बोली/निविदेत/प्राधिकृत अधिकाऱ्याला सर्वात जास्त विक्री किंमत प्रस्तावित केली आहे, तथापि, विक्री केवळ प्रतिभृत धनकोच्या पृष्टीकरणाच्या अधीन असेल.

यशस्वी बोलीदाराची इसारा रक्कम ठेव (इरठे) अंश विक्री विचारात ठेवली/समायोजित केली जाईल. इरठे कोणतेही व्याज सहन करणार नाही. प्राधिकृत अधिकाऱ्याने बोलीची किंमत मान्य केल्यावर, यशस्वी बोलीदाराला विक्री किंमतीच्या २५% रक्कम

जमा करावी लागेल, आधीच भरलेला इरठे समायोजित करून, त्याच दिवशी किंवा पुढील कामकाजाच्या दिवसाच्या नंतर नाही. नमूद केलेली रक्कम जमा करण्यात अयशस्वी झाल्यास, आतापर्यंत जमा केलेली रक्कम (इरठे स्वरूपात किंवा अन्यथा) कंपनीकडून जप्त केली जाईल आणि अधिकृत अधिकारी मालमत्ता पुन्हा एकदा विकू शकेल.

कालावधीत कंपनीचे प्रतिभत धनकोंना दिली जाईल.

१२. कंपनीचे सर्व खर्च, शुल्क आणि त्यांनी केलेले खर्च किंवा पूनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेड किंवा पीएचएफएल (पूर्वीची मॅग्मा हौ सिंग फायनान्स लिमिटेड किंवा एमएचएफएल) यांना स्वीकार्य असलेल्या काही भागांसह त्यांची देय रक्कम निविदा केली असल्यास कर्जदार आणि/किंवा हमीदार यांच्या वतीने ई-लिलावाच्या पुष्टीकरणाच्या तारखेपूर्वी कधीही, मालमत्तेची विक्री रद्द केली जाऊ शकते.

सर्व वैधानिक देय/परिचर शुल्क/नोंदणी शुल्क, मुद्रांक शुल्क, कर इत्यादींसह इतर देय फक्त खरेदीदारानेच भरावे लागतील.

१४. ज्या नावाने बोली सादर केली आहे त्याच नावाने विक्री प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.

प्राधिकृत अधिकारी किंवा **पूनावाला हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड किंवा पीएचएफएल** हे मालमत्ता/ई – लिलावात, इच्छूक बोलीदाराला मालमत्ता कर, वीज देय/शुल्क/धारणाधिकार असल्याच्या संबंधात सरकार आणि/किंवा तृतीय पक्षाच्या दार्व्यासाठी कोणतेही शुल्क, धारणाधिकार, बोजा किंवा इतर कोणत्याही देयकेसाठी जबाबदार राहणार नाहीत. इत्यादींच्या वैधानिक देयतेच्या थकबाकीसह मालमत्तेवरील बोजाबाबत स्वतःची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा सल्ला दिला जातो. अशा दायित्व/ भार फक्त खरेदीदारानेच उचलले जातील.

१६. बोलीदारांनी योग्य इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पॉवर बॅक-अप इत्यादीची खात्री केली पाहिजे. **पूनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेड किंवा पीएचएफएल**/अधिकृत अधिकारी/ऑनलाइन लिलाव सेवा प्रदाता इंटरनेट बिघाड, वीज बिघाड किंवा तात्रिक

अयशस्वी बोलीदारांचे इरठे लिलाव विक्री प्रक्रिया बंद झाल्याच्या १५ दिवसांच्या आत कोणत्याही व्याजशिवाय परत केले जाईल. उक्त बोलीदार या संदर्भात कोणताही दावा करणार नाहीत.

१८. 🗝 प्रस्ताव/बोली रीतसर भरल्या नाहीत किंवा इरठे आणि आवश्यक कागदपत्रे किंवा प्रस्ताव सोबत नाहीत किंवा वरील विहित तारखेनंतर आणि वेळेनंतर किंवा लिलाव विक्री सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या प्रस्ताव, त्या अवैध प्रस्ताव/ बोली मानत्या जातील किंवा मानत्या जातील आणि त्यानुसार सरसकट नाकारण्यात येईल आणि अर्जदार/बोलीदारचा पुनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेड (पूर्वीची मॅग्मा हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड) किंवा या संदर्भात अधिकृत अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणताही दावा नसावा.

भाग घेत आहेत आणि अशा ई-लिलावाच्या परिणामांबहल पूर्ण माहिती आहे. इच्छुक बोलीदारास या संदर्भात <PHFL/PFL> किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणताही आश्रय नेसावा आणि येथे स्पष्टपणे प्रदान केलेल्या किंवा उक्त रकमेवरील

व्याज व्यतिरिक्त जमा केलेल्या रकमेच्या कोणत्याही परताव्यासाठी तो पात्र असणार नाही.

सरफायसी कायदा, २००२ अन्वये वैधानिक ३० दिवसांची सूचना

दिनांक: २६.०१.२०२२ ठिकाण: मुंबई

प्राधिकृत अधिकारी पूनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेड (पर्वीची मॅग्ना हौसिंग फायनान्स लि.)

विक्री किमतीच्या केवळ २५% ठेवी यशस्वी बोलीदाराला त्याच्या बाजुने विक्रीची पुष्टी मिळण्यास पात्र होणार नाही. विक्री अधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत धनकोच्या पुष्टीकरणाच्या अधीन असेल. ११. वरील अटींनुसार विक्री किमतीच्या २५% रक्कम जमा केल्यानंतर, उर्वरित ७५% विक्री किमतीची रक्कम विक्री पृष्टीकरणाच्या **१५व्या** दिवशी किंवा त्याआधी किंवा लिखित स्वरूपात मान्य केल्याप्रमाणे आणि संपूर्णपणे विवेकबुद्धीनुसार अशा विस्तारित

कारणांमुळे कोणत्याही व्यत्ययासाठी जबाबदार राहणार नाही. ई-लिलावावर परिणाम करणारी कारणे आकस्मिकता.

कोणतेही कारण न देता कोणतीही किंवा सर्व बोली नाकारण्याचा अधिकार प्राधिकृत अधिकारी राखून ठेवतो. अशा निर्णयाबाबत कंपनी किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांवर कोणताही दावा करता येणार नाही. २०. पूनावाला हौसिंग फायनान्स लिमिटेड/पीएचएफएल (पूर्वीची मॅग्मा हौसिंग फायनान्स लिमिटेड) च्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या अवाजवी प्रभावाशिवाय इ-लिलाव प्रक्रियेत इच्छूक बोलीदार/तिच्या/त्यांच्या स्वतंत्र इच्छा आणि विवेकबुद्धीने

२१. जर इरठे जमा करण्याची तारीख आणि ई-लिलाव तारखेला सुट्टी जाहीर केली गेली तर ती तारीख आपोआप पुढील कामकाजाच्या दिवसापर्यंत वाढवली जाईल.

२२. कर्जदार/जामीनदारांना ई-लिलावाच्या तारखेपूर्वी वर नमूद केलेल्या व्याज आणि सहाय्यक खर्चासह वर नमूद केलेली रक्कम देण्यास सूचित केले जाते, ते अयशस्वी झाल्यास प्रतिभूत मालमत्ता/मालमत्ता लिलाव/विक्री केली जाईल आणि शिल्लक देय, असल्यास, व्याज आणि खर्चासह वसूल केले जातील.

WISH YOU A VERY A VERY HAPPY REPUBLIC DAY



**DERIVATIVES** 

**MUTUAL FUND** 

LIFE INSURANCE

INTERNET TRADING

**PROPERTY DEALER** 

G.K Mall, 1st Floor Near Shyam Cinema, Churu-331001 (Raj.)

Jaipur Address: COIN PLUS, G-29, Rangoli Plaza, Maharana Pratap Marg, Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.)-302034

E-Mail: saraf.kalpesh@gmail.com

For Trade And Franchinse Please Contact Mr. Kalpesh Saraf - 94625 63025

## ईएसआईसी योजना से नवम्बर में १०.२८ लाख नए सदस्य जुड़े

नई दिल्ली/एजेंसी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ईएसआईसी द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नवंबर 2021 में लगभग 10.28 लाख नए सदस्य शामिल हुए, जबिक इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा 12.39 लाख था। ईएसआईसी के इन आंकड़ों से देश में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार के बारे में अंदाज मिलता है। ताजा आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी एक रिपोर्ट का हिस्सा है।



# कोविड की तीसरी लहर के बीच

**नई दिल्ली/एजेंसी।** कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के बीच कारोबारी गतिविधयों में गिरावट आई है। नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्प्शन इंडेक्स (एनआईबीआरआई) किसी संबंधित सप्ताह की कारोबारी गतिविधियों की तुलना महामारी-पूर्व के स्तर से करता है। 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में यह घटकर 100.5 पर आ गया। इससे पिछले सप्ताह यह 102.2 पर था। जापान की ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि गूगल कार्यस्थल के तहत खुदरा तथा मनोरंजन क्षेत्र में 'मोबिलिटी' घटने से यह सूचकांक नीचे आया है। इनमें क्रमश: 10.7 प्रतिशत अंक (पीपी) और 4.4 प्रतिशत अंक की कमी आई है। वहीं एपल ड्राइविंग इंडेक्स १.७ प्रतिशत अंक चढ़ा है। इस दौरान श्रम

# एयरटेल ने महाराष्ट में 21 मेगावाट

# कारोबारी गतिविधियां घटीः रिपोर्ट

भागीदारी दर बढ़कर ३९.८ प्रतिशत पर पहुंच गई।

# की सौर ऊर्जा इकाई शुरू की

**नई दिल्ली/एजेंसी।** दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने मंगलवार को कहा कि उसने कार्बन फुटप्रिंट कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के वैश्विक प्रयासों में योगदान के लिए महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में 21 मेगावाट की एक नई सौर ऊर्जा इकाई चालू की है। कंपनी को उम्मीद है कि इस सौर ऊर्जा इकाई से सालाना कार्बन उत्सर्जन में 25,517 टन की कमी होगी। एयरटेल ने कहा कि 80 एकड़ में फैली कैप्टिव बिजली इकाई को एयरटेल ने अवाडा के साथ साझेदारी में स्थापित किया है। इससे महाराष्ट्र में एयरटेल के नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर और स्विचिंग केंद्रों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी।

### About Investment Point...

REPUBLIC

The founder-editor and owner of Investment Point, Nikhil Bhatt is a SEBI registered individual Research Analyst under the SEBI (Research Analysts) Regulations, 2014 is an entrepreneur, global thought leader with a sound understanding trend of BSE, NSE, financial segments and market trends.

INSIGNIA

According to Nikhil Bhatt, "Our mission is to spread financial awareness and improve financial literacy in a concise, simple and easy-to-understand manner. Backed by scientific research, ethical principles and reliable data, our publications benefit and guide the Indian financial / non financial community like merchants, managers, investors, traders and readers".

We strive to continually upgrade ourselves, our technologies, our methodologies with an ethical, reliable, consistent and timely source of information to provide our clients.

We provide research report in form of newsletters, articles, blog-posts and recommendations in all segments to digital & print media with the name of investment point, registered with RNI, market trend, market scan, market movers and market movement that covers multiple markets because we clearly understand the distinctions between emerging and developed markets.

Mr. Bhatt has built a reputation of a professional Research Analyst with a keen understanding of various industries and sectors and he is a much sought-after speaker on stocks and capital markets, personal finance, trading methods of emerging business markets.

He remains personally involved in seminars, investor education, and training, also provides better & best trading idea and consultancy services in all equity segment with daily & positional strategy to traders and guidelines for investors after they read & legally agree with disclaimer, private policy, terms & conditions, agreement and submission of registration as mentioned on web portal www.nikhilbhatt.in.



Nikhil Bhatt **Research Analyst - SEBI** +91 99793 80808

II Our Experience is Your Treasure II

Stock Market Trading Consultancy

101 - 110, Madhav Complex, Patel Colony, Jamnagar

www.nikhilbhatt.in



e-IPO

**STRATEGY SHOP** 

INTERNATIONAL INVESTING

**MULTI ASSET** WEALTH FOR WOMEN **PORTFOLIO** 

**STOCK SIP** 

**TRADE CLUE** 

Office Address: - 34, Purohit Ji Ka Baas, near Kankeshwar Mahadev Mandir, 22 Godam, Jaipur-302006

#### MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

Open Offer for acquisition of 27,84,600 (Twenty Seven Lakhs Eighty Four Thousand Six Hundred Only) fully paid up equity shares of Rs.10/- each from equity shareholders of Mehai Technology Limited (hereinafter referred to as "Target Company" or "MEHAI") except parties to Share Purchase Agreement ("SPA") dated 18th October, 2021 by Dynamic Services & Security Limited (hereinafter r o as "Acquirer" or "DYNAMIC") pursuant to and in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations, 2011

This Advertisement and Corrigendum is being issued by Finshore Management Services Limited, on behalf of Dynamic Services & Security Limited ("Acquirer") in respect of the open offer to acquire shares from the public shareholders of Mehai Technology Limited ("Offer Opening Public Announcement"). The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made on 26th October, 2021 in Financial Express, English Daily (in all editions), Jansatta, Hindi Daily (in all editions), Mumbai Lakshadeep, Marathi Daily (in Mumbai edition), Business Remedies, Hindi Daily (in Jaipur edition) and in Duranta Barta, Bengali Daily (in Kolkata edition).

The Offer Price is Rs.46.54/- (Rupees Forty Six and paise Fifty Four Only) per Equity Share. There has been no revision in the Offe

The committee of independent directors of the Target Company ("IDC") published its recommendation on the Offer on 18th January 2022 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair an reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011.

The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI SAST Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations, 2011.

Despatch of Letter of Offer to the public shareholders.

The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date has been completed (either through electronic or physical mode) by 20th January, 2022. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer and parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www. finshoregroup.com) from which the Public Shareholders can download/print the same.

#### nstructions to the public shareholders

As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 3, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 1, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their respective Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details

5.2 In case the shares are held in demat form

An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their shares in the open offer apper the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details.

5.3 Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer

Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Targe Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Iden Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), along with the following details

In case of physical shares: Name, address, distinctive numbers, folio nos, number of Equity Shares tendered

In case of dematerialized shares: Name, address, number of Equity Shares tendered/withdrawn, DP nam

and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Shareholders have to ensure that their orde is entered in the electronic platform of BSE through the Selling broker which will be made available by BSE before the closure of the Tendering Period.

Any other changes suggested by SEBI in their comments to be incorporated.

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 2nd Novembe 2021 ("Draft Letter of Offer"), SEBI, vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/OW/1584 dated 11th January, 2022, issued its of on the Draft Letter of Offer. These comments have been incorporated in the Letter of Offer.

Any other material change from date of the Public Announcement

Details regarding the status of the Statutory and other approvals

To the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required by the Acquirer to acquire the equity shares tendered pursuant to this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the closure of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals. The Acquirer will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations, 2011.

Corrigendum to the DPS:

The Point D (D.2) of the Detailed Public statement has to be read as- "The Acquirer has entered into the SPA on 18th October, 2021 whereby the Acquirer has agreed to acquire 77,06,100 fully paid-up equity shares of face value Rs.10/- each of the Target Company at a price of Rs. 2/- per Equity Share ("Sale Shares"), which constitutes 71.95% of the total issued, subscribed, paid-up equity share capital and voting capital of the Target Company."

Change in contact details of Acquirer: Website: https://dssl.ind.in/

10. Schedule of Activities:

The schedule of major activities under the Offer is set out below

Nature of the Activity	Original schedule of activities (as disclosed in the draft Letter of Offer)		Revised Schedule of Activities		
	Date	Day	Date	Day	
Date of Public Announcement	18th October, 2021	Monday	18th October, 2021	Monday	
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	26th October,2021	Tuesday	26th October,2021	Tuesday	
riling of draft letter of offer with SEBI along with soft copies of Public Announcement and detailed Public statement	2nd November,2021	Tuesday	2nd November,2021	Tuesday	
ast date for a competing offer*	18th November,2021	Thursday	18th November,2021	Thursday	
ast date for receipt of comments from SEBI on the lraft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought larification or additional information from the Manager o the Offer)	26th November,2021	Friday	11th January, 2022***	Tuesday	
dentified Date**	30th November,2021	Tuesday	13th January, 2022	Thursday	
ast date for dispatch of the Letter of Offer to the public hareholders of the Target Company as on the identified Date	7th December, 2021	Tuesday	20th January, 2022	Thursday	
ast date for upward revision of the Offer Price and / or he Offer Size	10th December,2021	Friday	25th January, 2022	Tuesday	
ast date by which the recommendation of the committee of independent directors of the Target Company will be published.	9th December, 2021	Thursday	24th January, 2022	Monday	
Date of public announcement for opening of the Offer in he newspapers where the DPS has been published.	13th December,2021	Monday	26th January, 2022#	Wednesday	
Date of Commencement of tendering period	14th December,2021	Tuesday	28th January, 2022	Friday	
Date of Closing of tendering period	27th December,2021	Monday	10th February, 2022	Thursday	
ast date of communicating rejection/acceptance and bayment of consideration for accepted tenders/return of inaccepted Equity Shares.	10th January, 2022	Monday	24th February, 2022	Thursday	

\*\* Identified date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All shareholders (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer and Seller eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

\*\*\*actual date of receipt of SEBI final observations

On 27th January, 2022, there is no publication, hence this advertisement is published on 26th January, 2022

The Acquirer accepts full responsibility for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI SAST Regulations, 2011 and for the information contained in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum.

This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum would also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer



Finshore Management Services Limited, Anandlok Block A, Room-207, 227, AJC Bose Road,

Kolkata-700020 Tel: +91- 033-22895101/9831020743 Website: <a href="www.finshoregroup.com">www.finshoregroup.com</a> Investor Grievance email id: <a href="maskrishna@finshoregroup.com">ramakrishna@finshoregroup.com</a> Contact Person: Mr. S Ramakrishna lyengar SEBI Registration No: INM000012185

Dynamic Services & Security Limited

Date: 25th January, 2022

#### যাত্ৰীবাহী বাস থেকে অস্ত্র উদ্ধার কালনায়

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৫ জানুয়ারি ঃ ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগের দিন যাত্রীবাহী বাস থেকে অস্ত্র উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকমায়। প্রজাতন্ত্র দিবসে কালনা মহকুমায় যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য মঙ্গলবার নাকা চেকিং চালাচ্ছিল নাদনঘাট থানার পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে জেলায় অবৈধ অস্ত্র আমদানি করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী নাকা চেকিং চলাকালীন পূর্বস্থলী-১ ব্লুকের হেমায়েতপুর এলাকায় বর্ধমানগামী একটি বাস থেকে অস্ত্রসহ দু'জনকে গ্রেফতার করে নাদনঘাট থানার পুলিশ। কালনা মহকুমার এসডিপিও সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য জানান, আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল বাইরে থেকে জেলায় অস্ত্র ঢুকছে। সেই অনুযায়ী নাদনঘাট থানার পুলিশ নাকা চেকিং শুরু করে। মঙ্গলবার বর্ধমানগামী একটি বাসে তল্লাশি চলাকালীন পূলিশ ৩টি রাইফেল এবং ২টি ওয়ান শাটার বন্দুক উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে ডোমকল থানার শাহেজাদা গ্রামের বাসিন্দা কুতুব উদ্দিন মণ্ডল এবং নাদনঘাটের গোকর্ণ গ্রামের বাসিন্দা মনসুর মণ্ডল নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নাদনঘাট থানা পুলিশ। অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে ধৃত দু'জনকে কালনা আদালতে তোলা হয়। সূত্র মারফত জানা গেছে, ধুদের কাছ থেকে প্রচুর নদগ অর্থ ও দুটি মোবাইল পাওয়া গেছে। কী কারণে ধৃতরা এই রকম অস্ত্র নিজেদের কাছে রেখেছিল এবং এই অস্ত্র কোন অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করার চক্ৰান্ত ছিল কি না তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে নাদনঘাট থানার পুলিশ।

#### উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কলোনি, এন. ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর আহান করছেন ''ওপেন'' ই-টেন্ডার অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডারিং) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ঃ- **টেন্ডার** নোটিস নং ও কাজের বিবরণ ঃ ১. ০১-২০২২-কলোনি, কাজের নাম ঃ এমএসটিসি হো*ল্টেলে* সোলার গিজার বসানোর বন্দোবস্ত কোয়ারেন্টিন সুবিধার উন্নয়নে ৫৪ বেডের আইসোলেশান ওয়ার্ডে, আনুমানিক মূল্য (টাকা) ঃ -৭০৩০০০.০০, ই.এম.ডি. মূল্য (টাকা) ঃ- ১৪১০০.০০, টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য, সম্পাদনের সময়। গ্রহনকারী চিঠি জারি হওয়ার তারিখ থেকে মেয়াদ ঃ ৬০ দিন টেন্ডার নোটিস নং ও কাজের বিবরণ ঃ ২. ০২-২০২২-কলোনি, কাজের নাম ঃ গোরক্ষপরে ইলেকট্রিক্যাল কাজ - প্রস্তাবিত রাস্তা চওড়া করা এবং উন্নতি করা রাস্তা নং. ১৬ দুর্গা মন্দির থেকে এসএসই ইলেকট্রিক্যাল আউটডোর পর্যন্ত**, আনুমানিক মূল্য** (টাকা)ঃ -২১৯০২৭৯.১০, ই.এম.ডি. মূল্য (টাকা) ঃ- ৪৩৮০০.০০, টেন্ডার নথির মূল্যঃ ণনা, সম্পাদনের সময়। গ্রহনকারী চিঠি জারি হওয়ার তারিখ থেকে মেয়াদ ঃ ০৬ মাস. ই-টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ১৫.০২.২০২২ বেল ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত, ম্যানুয়াল অফার গ্রহণযোগ নহে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে এবং যদি এই ধরণের কোন দরপত্র আসে তা গ্রাহ্য করা হবে না। বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখন ভারতীয় রেলওয়ের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in

ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কলোনি CPRO/EL-94

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫ ''চলন্ত ট্রেনে ধূমপান করবেন না''

#### TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Hooghly Division invites NIT from Bonafied resourceful contractor, against N.I.Q. No-23 of **2021-'22** of Executive Engineer, PWD, Hooghly Division for 1(One) no. civil works/Bid submission closing date: 02.02.2022 upto 2.00 p.m. Tender documents may be downloaded from: http:// wbtenders.gov.in Other details may be seen from the Office of the u/s on any working day between office hours and from the Departmental website www.pwdwb.in

Sd/-Executive Engineer, **PWD**, Hooghly Division

#### টোঙ্গানি টি কোম্পানি লি. CIN NO-L01132WB1893PLC000742 রেজি অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী,

৬য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ ফোন নং. ২২৪৮৭৬৮৫.

ফ্যাক্স নং. ঃ ০৩৩ ২২১০০৫৪১

ই-মেল ঃ info@tonganitea.com ওয়েবসাইট ঃ www.tonganitea.com বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশানস ও ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্ট্স) ধারা. ২০১৫ অনসারে টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড-এর বোর্ডের পরিচালনবর্গের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ৩ ফব্রেয়ারি. ২০২২ কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ বেলা ১.১৫ ঘটিকায় বিবেচনা, ইন্টার-আলিয়া, (১) অনুমোদন এবং রেকর্ড গ্রহণ স্বতন্ত্র বিবরণী অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ (২) রেকর্ড গ্রহন সাময়িক পর্যালোচিত ফলাফর ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১,

বোর্ডেরর পক্ষ স্থান ঃ কলকাতা স্বা /- অরিন্দম রায় চৌধুরি তারিখ ঃ কোম্পানি সচি ২৫.০১.২০২২ Membership No.A37602

Place: Kolkata

Date: 25.01.2022

# প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে নাকা তল্লাশি পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২৫ জানুয়ারি ঃ প্রজাতন্ত্র দিবসের আগেই পূর্ব হয় পুলিশের পক্ষ থেকে বর্ধমান জেলার সাথে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি পুলিশের। প্রজাতন্ত্র দিবসে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য এই পদক্ষেপ পূর্ব বর্ধমান জেলা পূলিশ প্রশাসনের। বুধবার পালিত হচ্ছে প্রজাতন্ত্র দিবস। ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে রাজ্যে একাধিক জেলার সাথে পূর্ব বর্ধমানেও শুরু হয়েছে পুলিশি তৎপরতা, চলছে নাকা চেকিং। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জেলার সাথে বর্ধমান শহরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করছে পুলিশ। বর্ধমান সদর থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন বাজার, মার্কেট ও শপিংমল গুলোতে চিরুনি তল্লাশির পাশাপাশি বিভিন্ন যানবাহন আটকে তল্লাশি শুরু করা হয়। বর্ধমান থানা ও জেলা পুলিশ যৌথভাবে স্নিফার ডগ ও মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে কার্জনগেট চত্ত্বর, দত্ত সেন্টার-সহ শহরজড়ে চালায় চেকিং। পর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পলিশ সপার কল্যান সিংহ রায় জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মত এবছরও রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় অ্যান্টি-স্যাবোটেজ চেকিং চালানো হচ্ছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্যেই এই পদক্ষেপ জেলা পুলিশ-প্রশাসনের। এছাড়া এদিন পথচলতি বাইক ও বিভিন্ন চার চাকার গাড়ি আটকে চলছে তল্লাশি চালানো

যুবককে পিটিয়ে খুনের তদন্ত শুরু পুলিশের দুরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ২৫ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগকে ঘিরে উত্তেজনা সোমবার রাতে গঙ্গারামপুরের অশোকগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দোমুঠা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম মঞ্জুরুল হোসেন (২৬)। মঙ্গলবার ভোরে বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দোমুঠা গ্রামের বাসিন্দা মঞ্জুরুল পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। কিছু দিন আগেই তিনি বাড়ি ফিরেছেন। সোমবার রাতে স্থানীয় বাজার থেকে মোটরবাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন মঞ্জুরুল। অভিযোগ, সেই সময় এলাকার বেশ কয়েকজন যুবক তাঁকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে। মঙ্গলবার ভোরে বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে যান পরিবারের লোকজন। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশও সেখানে আসে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা

ক্ষোড় নং. ঃ ১৫৭৪৫. জোনাল অফিস বিশ্ডিং ( ৪র্থ ফ্লোর) ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ ঘনুবিধি-৪ (ধারা ৮(১)

অ্যাকা. নং. ৩০৩৫৭৭৭৪৯৫২ নিম্ম্বাক্ষরকারী হচ্ছেন স্বীকৃত আধিকারিক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই সেন্টার, বিধাননগর, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পূর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন,২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৬ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ জারি করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ১৮.০৯.২০২০ জানানো যায় গ্রাহক মে. এ. কে. এস. বাগ মালিকঃ শ্রী অজয় কুমার সাহা এবং জামিনদারঃ শ্রীমতি কবিতা সাহা পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল টাকা. ১১,৩৫,৬৩২.৭৪ (এগারো লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার ছয়শত বত্রিশ টাকা চুয়ান্তর পয়সা মাত্র) ০৪.০৮.২০২০ **তারিখে** সঙ্গে সুদ, আনুষ্ঠানিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক। জামিনদার যদি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন**,** সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক। জামিনদার এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করবেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা নাস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ ও ৯ উল্লেখিত ধারায় ২**৫ জানুয়ারি,** 

২০২২ তারিখে। গ্রাহক / জামিনদারদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে ব্যান্ধ অফ ইন্ডিয়া দাবী করবে টাকা. ১১,৩৫,৬৩২.৭৪ (এগারো লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার ছয়শত বত্তিশ টাকা চুয়ান্তর পয়সা মাত্র) ০৪.০৮.২০২০ তারিখে সঙ্গে পরবর্তী সুদ ০৫.০৮.২০২০ থেকে

গ্রাহকেরমনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে অধীন বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) অধীন ধারা ১৩ আইনের উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমির পরিমাপ এলাকা ০১ কাঠা ১৩ ছটাক কম বা বেশি রয়েছে একটি পাকা বাড়ি,
যা রয়েছে মৌজা ঃ উত্তর নিমতা, জেএল নং. ২, আর.এস. নং. ১০২, তৌজি নং. ১৭২, সি.এস. দাগ নং.
১৭৩৭, খতিয়ান নং. ৪১২, হোল্ডিং নং. ৮/ ১, রামকৃষ্ণপল্লী, কলকাতা-৭০০০৪৯, ওয়ার্ড নং. ৯,
কাশীপুর, যার ডিড নং. ঃ ১-১৬৬৫ তারিখ ০৬.১০.১৯৯৯, জেলা -উত্তর ২৪ পরগণা।
পরিসীয়া ঃ উত্তরে- ১০ ফাই চওড়ো বাস্থা দক্ষিণে-অনিল ক্যাব সাহার সম্পত্তি পর্ব-পাই নং ১৬ ও ১৭।

সম্পত্তি রয়েছে শ্রী অজয় কুমার সাহার নামে। **দ্রস্তব্য ঃ** অধিগ্রহণ নোটিস ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহক। জামিনদারকে স্পিড পোস্টে। যদি, গ্রাহক জামিনদার তা না পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নোটিস ধার্য্য হবে পরিবর্ত প্রদানের মাধ্যম হিসাবে। পূর্বে জারি করা নোটিস অধীন ধারা ১৩(৪) সারফেশি আইন, ২০০২ বাতিল হিসাবে বিবেচিত এবং ত প্রত্যাহার করা হল

স্বীকত আধিকারিক তারিখ ঃ ২৫.০১.২০২২ স্থান ঃ বিধাননগর স্টেট ব্যান্ধ অফ ইন্ডিয়

#### ANCHURI GRAM PANCHAYAT BADULARA\*WEST SANABANDH\*BANKURA NOTICE INVITING e-TENDER Tender No. - 08/2021-2022, Dated - 21.01.2022 E-Tender No. - 06/2021-22

Sealed percentage rate e-tenders are hereby invited by the undersigned from the bonafide and experienced contractors for the work of: Supply of materials for the work "Construction of Community Goal Shelter a Keranipur for Kapista SHG Group under Anchuri G.P under BK-I Development Block from MGNREGS Fund, Date of downloading the documents from 21/01/2022 at 4.00 pm. Up to 28/01/2022 at 1.00 pm Date of submission of Technical Bid and Financial Bid from 21/01/2022 at 5.00 pm up to 28/01/2022 at 1.00 pm. Last date of submission of Original Demand draft from 22/01/2022 up to 31/01/2022 up to 17.00 hrs.

Sd/-Pradhan

#### Office of the BENIAGRAM GRAM PANCHAYAT Vill-Srirampur, P.O-Beniagram, P.S-Farakka, Dist-Msd, 742202

Sealed Tender is invited by the Prodhan, Beniagram Gram Panchayat, for the following works.

SI NIT No.		Description	Fund	Application			
No.		of NIT		last date			
1	15/BNGP/PBG	NOTICE INVITING	PBG IBRD	31-01-2022			
	IBRD 2020-21	TENDER	2020-21	up to 5.30 PM			
2	16/BNGP/PBG	NOTICE INVITING	PBG 4 th	31-01-2022			
	IBRD 202	TENDER	SFC	up to 5.30 PM			
3	17/BNGP/PBG	NOTICE INVITING	PBG IBRD	31-01-2022			
	IBRD 2020	TENDER	2020-21	up to 5.30 PM			
Details information is available from the office notice board.							
Sd/- Prodhan							

Beniagram Gram Panchayat

#### **GOLDEN CREST EDUCATION & SERVICES** LIMITED CIN: L51109WB1982PLC035565

Registered Office: 62A, Dr. Meghnad Shah Sarani, Room No. 2, 2nd Floor, Southern Avenue, Kolkata - 700029, India E-Mail: info@goldencrest.in; Website: www.goldencrest.in Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the 3rd quarter and

nine months ended 31st December, 2021

	[See Regulation 47(1) (b) of	the SEBI (LC	, .	ons, 2015] (Amount in Rs.)
			Unaudited	,
0	Particulars	Quarter ended 31st December 2021	Nine months ended 31st December 2021	
	Total Income from Operations	141,151	1,971,936	811,151
	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(151,899)	329,791	19,639
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(151,899)	329,791	19,639
	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(151,899)	329,791	19,639
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(151,899)	329,791	19,639
	Equity Share Capital	52,450,000	52,450,000	52,450,000
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)(Not Annualised)			
	Basic & Diluted	(0.03)	0.06	0.00

The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months ended unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com & www.cse-india.com. The same is also available or

the Company's website viz. www.goldencrest.in. By order of the Board For Golden Crest Education & Services Limited Yogesh Lama Whole -Time Director DIN No.: 07799909

#### E-NIT

Block Dev. Office, JB Pur, Howrah & Jagatballavpur Panchyat Samity Munshirhat, Howrah NIT No:-WBJBPURPS/NIT-3054/2022 Dated:-21/01/2022

> Fund:-RIDF Total nos of works-04.

Start date of application/ Bid submission start date: 24.01.22. Last date of submission of bid

: 10/02/22. Bid opening date (technical): 12/ 02/22.

> Sd/-BDO, JB Pur Munshirhat, Howrah & E.O. JB Pur P.S. Munshirhat, Howrah

#### NIT

Block Dev. Office, JB Pur, Howrah & JBpur Panchyat Samity Munshirhat, Howrah NIT No:- 04/EO, JB Pur, Dated:-19/01/22 Total nos of works-04. Fund:-RIDF

Last date of application: **02.02.22.** Date of Issue of tender paper: **04/02/22.** Date of submission of tender paper: 07/02/22. Date of opening of tender paper: 08/02/2022.

> Sd/- Block Dev. Officer JBPur Dev. Block & Executive Officer JBPur Panchayet Samity Munshirhat, Howrah



### রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, গুয়াহাটি

ই-টেন্ডার নোটিস

তারিখ ঃ ২৫.০১ .২০২২ নং. আরইজিএইচওয়াই-ইএল-ওটি-ইনস.-পেন্ট চারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, গুয়াহাটি আহ্বান করছেন ওপেন ই-টেন্ডার সিঙ্গেল প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ঃ-

١.	ই-টেন্ডার নং. ও তারিখ ঃ	আরহাজএইচওয়াই-ইএল-ওটি-ইনসপেন্ট
		তারিখ ঃ ২৫.০১.২০২২
২.	কাজের নাম ঃ	যোগান এবং আবেদন ৩-পার্ট হাই ভোল্টেজ কম্পোসাইট
		ইনসুলেটেড কোটিং উপরের দিকে আরওবিএস। এফওবিএস।
		গ্রিডার-ব্রিজ। পোর্টাল-বুমস যার রয়েছে নিয়ন্ত্রিত পরিচ্ছন্নতা
		নিউ বঙ্গাইগাঁও-গোয়ালপাড়া-কামাক্ষ্যা সেকশানে জিআর. ২৫৬
		রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান কাজের সঙ্গে সংযুক্ত।
৩.	টেন্ডারিং বিভাগ	ইলেকট্রিক্যাল
8.	ধরের ধরণ	সাধারণ টেন্ডার
Ć.	টেন্ডার ধরণ	খোলা
৬.	দরের ব্যবস্থা	সিঙ্গেল প্যাকেট
٩.	দরের স্টাইল	একক দর টেন্ডারের
ъ.	দরের ইউনিট	ওপর।নীচে।প্রতি
৯.	দরের মূল্য	টাকা ৫৬,৬৬,৬৭২.২০
٥٥.	আয়ের মূল্য যা জমা করতে হবে	টাকা ১,১৩,৩০০.০০
١٥.	টেন্ডার নথির মূল্য	<b>भृ</b> न्।
১২.	অফারের বৈধতা	৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিন খোলার তারিখ থেকে।
১৩.	সম্পাদনের মেয়াদ	০৪ মাস (১২০ দিন) এলওএ জারি হওয়া থেকে।
١8.	ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	১৬.০২.২০২২ বেলা ১২.০০ ঘটিকা
\$৫.	বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস ও	
	টেন্ডার নথি দেখার ওয়েবসাইটে	www.ireps.gov.in

(১) টেন্ডারের কোন পরিবর্তনের জন্য, দয়াকরে দেখুন ইন্টারনেট ওয়েবসাইট। আসল টেন্ডার নোটিসের

(২) রেলওয়ে প্রশাসন দায়ী থাকবে না কোনরকম দেরি*। জ্রটি।* অপ্রাপ্তির জন্য ডাউনলোড করার সময় কোন কারনে যা কোন কিছতে।

 টেন্ডার খোলার পর, কোন নথি। শংসাপত্র টেকনিক্যাল বা ফিনান্সিয়াল যোগ্যতা সংক্রান্ত এবং ফার্মেং প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত চাওয়া হবে না বা দেখা হবে না । বিবেচনা করা হবে না কোন পরিস্থিতিতে ও কোন দাবী বা উপস্থাপনা যা কিছু করা যাবে না এক্ষেত্রে ঠিকাদারদের কাছ থেকে। যদিও রেলওয়ের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে স্বচ্ছতার বিষয়ে জানতে চাওয়ার যে নথিপত্র ইতিমধ্যে জমা করা হয়েছে ঠিকাদারদের তরফ থেবে সঙ্গে তাদের দরপত্র।

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে

ডেপুটি সিইই/আরই / জিএইচওয়াই রেলওয়ে ইলেকটিফিকেশান / গুয়াহাটি PR-25-2022 **PAMM** 

'প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়' **BERUGRAM GRAM PANCHAYAT** SADIPUR JAMALPUR PURBA BARDHAMAN Email Address : gp.berugram.jam@gmail.com TENDER NOTICE

SI. No.	NIT No. & Date	Scheme Name	Location	Sourse Of Fund	Tender Amount	EMD	Tender Published	Last Date of Form
_							Date	Submission
1	BERUGRAMNIT/CF CG-BG(T)/34/1/2022	PURIFIER DRINKING WATER MACHINE AT JAMUDAHA KALI TALA	JAMUDAHA	CFCG-BG (TIED) 2021-22	329694	6,594.00	2501/2022	22/2022
2		PUCCA DRAIN FROM CHAK- SHANJADI OSMAN HOUSE TO				.,		
		CHOUMATHA AT CHAK- SHANJADI SANSAD.	CHAK- SHANJADI		199209	3,984.00		
3		PUCCA DRAIN FROM UTTAM	OTHERDS		150200	3,304.00		
		DUTTA HOUSE TO TALDA TALA AT CHAKKRISHNAPUR UTTAM-	CHAK-					
		CHAND PUR SANSAD.	KRISHNAPUR		149483	2,990.00		
4		PUCCA DRAIN FROM AMAL PAL HOUSE TO IDRIS SK HOUSE AT						
5		SADIPUR VIII PUR SANSAD.  PLICCA DRAIN FROM MAS IID	SADIPUR		199269	3,985.00		
•		TALA TO DHAPPOND AT	CHAK-					
6		JAMUDAHA SANSAD. TUBE WELL PLATFORM NEAR	SHANJADI		199836	3,997.00		
0		RAMCHANDRA GHOSH SHOP AT						
_		BALARAMPUR SANSAD TUBE WELL PLATFORM NEAR	BALARAMPUR		19980	400.00		
7		LIVER PUMP AT BALARAMPUR						
		SANSAD	BALARAMPUR		19980	400.00		
8	BERUGRAMNIT/CF CG-BG(UT)/35/1/2022	CONST OF CCR FROM TANMOY DEY HOUSE TO PINTU HOUSE	CHAK-	(UNTIED)				
	0000(01)33112022	AT JAMUDAHA SANSAD	SHANJADI	2021-22	198834	3,977.00		2/2/2022
9		CONST OF CCR FROM BIJAY PAKRASHI HOUSE TO DURGA						
		TALA AT CHAKKRISHNAPUR	UTTAM-					
		UTTAM CHANDPUR SANSAD.	CHANDPUR		198834	3,977.00		
10		CONST OF CCR FROM CHAL- BALPUR FP SCHOOL TO						
		WAITING SHED AT HAIBATPUR CHALBALPUR SANSAD	CHALBALPUR		249349	4987.00		
11		CONST OF CCR FROM	CHALBALFOR		243343	4,307.00		
		CHANDANA CHATTERJEE TO						
		SUKUMAR MALIK HOUSE AT BERUGRAM SANSAD	BERUGRAM		349739	6,995.00		
12		CONS CONCRETE ROAD FROM						
		PUCCA ROAD TO SABAR ALI HOUSE AT MATHNASIPUR	MATH-					
		SANSAD.	NASIPUR		299109	5,982.00		
13	BERUGRAMNIT/CF CG-BG(T)/36/1/2022	PUCCA DRAIN FROM SHILATALA VIA CHOUMATA TO NABAKUMAR DEY HOUSE AT SAMBHUUR		CFCG-BG				
		II SANSAD.	SHAMBHUPUR	(TIED) 2021-22	199209	3,984.00		10/2/2022
14		PUCCA DRAIN FROM UTTAM						
		DUTTA HOUSE TO TALDA TALA AT CHAKKRISHNAPUR UTTAM-	CHAK-					
		CHAND PUR SANSAD.	KRISHNAPUR		149483	2,990.00		
15		PUCCA DRAIN FROM SHAMBHU DAS HOUSE TO PATHICK RAJ						
		GHOSH POND AT KANAKPUR	KANAKPUR		199269	3,985.00		
16		PUCCA DRAIN FROM MOHAN DHARA HOUSE TO MAJHER						
		PARA CLUB AT NAKHRA						
17		KRISHNAPUR SANSAD.	NAKHRA		199836	3,997.00		
v		PANCHAYAT TOILET	GP OFFICE		80000	1,600.00		
18	BERUGRAMNIT/CF	ELECTRIC PUMP AT CHAK-	CHAK-	CFCG-BG				
	CG-BG(T)/37/1/2022	SHANJADI PLOT NO 1161 PART A	SHANJADI	(TIED) 2020-21	296612	5,932.00		3/2/2022
19		ELECTRIC PUMP AT CHAK-	CHAK-	Luco E.				02232
20		SHANJADI PLOT NO 1161 PART B ELECTRIC PUMP AT CHAK-	SHANJADI CHAK-	_	208206	4,164.00		
_		SHANJADI PLOT NO 1066 PART A	SHANJADI		296612	5,932.00		
21		ELECTRIC PUMP AT CHAK- SHANJADI PLOT NO 1066 PART B	CHAK- SHANJADI		208206	4,164.00		
22		ELECTRIC PUMP AT CHAK-	CHAK-					
23		SHANJADI PLOT NO 1077 PART A ELECTRIC PUMP AT CHAK-	SHANJADI CHAK-		296612	5,932.00		
ω		SHANJADI PLOT NO 1077 PART B	SHANJADI		208206	4,164.00		
24		SOLAR PUMP AT SALIMDANGA MATH PART A	KANAKPUR		349825	6,997.00		
25		SOLAR PUMP AT SALIMDANGA	NANAKPUK		399020	0,397.00		
		MATH PART B	KANAKPUR		349943	6,999.00		
26		SOLAR PUMP AT SALIMDANGA	VANIAVDIID		200040	£ 101 NN		

309040 6,181.00

#### উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

চারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি সিএমই*।* ওয়ার্কস চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের পক্ষ থেকে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর আহ্বা করছেন ওপেন টেন্ডার অনলাইন ব্যবস্থায় (ই-টেন্ডারিং) নিম্নলিখিত কাজের জন্য-

ক্র.নং. ঃ ১. ই-টেন্ডার নোটিস নং. ও কাজের না আইআরইপিএস টেন্ডার নং.-৩৮-জিকেপি এমডব্লুএস -২০২১-২২। ''বন্দোবস্ত ৫৭৬০ টি ভেনচুরি ব্যবস্থা ( শৌচাগারের বাতাস নির্গমন ব্যবস্থা) ১৪৪০ কামরায় ০১ বছরের জন্য মেকানিক্যাৰ ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুরে''**, আনুমানিক মূল্য (টাকা**) ঃ ৪৫,৭৩,৪৪০/-, আয়ের মূল্য (টাকা)ঃ ৯১,৫০০ , টেভার জমার শেষ তারিখ ঃ ১৫.০২.২০২২ তারিখ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত**, টেভার ফর্মে** মূল্য ঃ ০.০০, চুক্তির মেয়াদ ঃ ১২ মাস। উপরোক্ত টেভারের বিস্তারিত তথা পাওয়া যাত

ভারতীয় ওয়েবসাইটো রেলওয়ে www.ireps.gov.in -চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ

CPRO/ Mech-69 এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫ ''চলন্ত ট্রেনে ধূমপান করবেন না'

BASIRHAT MUNICIPALITY BASIRHAT, NORTH 24 PGNS NIT No. WBMAD/BASIR/E-06

of 2021-22 Online e-Tender are invited from bonafide agencies for Construction and Renovation works of 02 nos of Building under Basirhat Municipality Tender Closing date: 12.02.2022 at 01:00 p.m. For details, visit: https://wbtenders.gov.in www.basirhatmunicipality.in Sd/- Chairperson

Basirhat Municipality



**Durgapur Municipal Corporation**City Centre, Durgapur - 713216, Dist. - Paschim Bardhaman

Notice Inviting EOI

1) Name of the Work: Repairing of Seven numbers Vehicles, unde

Durgapur Municipal Corporation.

Notice No. DMC/AUTO/75(EOI-4) of 2021-22

 Date: 25/01/2022 Last Date: 01st February 2022, up to 05:00 pm For details: www.durgapurmunicipalcorporation.org Sd/- Commissioner, Durgapur Municipal Corporation

#### **EGRAMUNICIPALITY Notice Inviting Tender**

Chairperson, Board of Administrators, Egra Municipality on behalf of the Egra Municipality invites offline tender vide Ref:- NIT No. 06/DEV/2021-2022, Date-24/01/2022. Name of Work:- Renovation of different 18(Eighteen) Nos. Civil works within Egra Municipality. Last date of receipt of application: 07/02/2022 up to 3.00 P.M. For details visit the office of the undersigned.

Sd/- Chairperson **Board of Administrators Egra Municipality** 

#### মালদা ডিভিশনে রেলওয়ের জমির জবরদখল অপসারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

<mark>পাটনার মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়</mark> দারা জারি করা <mark>সিডব্লজেসি নম্বর ১৬৭২৪ অফ</mark> ২০২১-এ উল্লিখিত আদেশ অনুসারে, মালদা ডিভিশনের পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন অভয়পুর–কাজরার (লক্ষ্মীসরাই জেলায়) মধ্যে রেলওয়ের জমিতে জবরদখল অপসারণ করতে রাম প্রবেশ কুমার এবং প্রকাশ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন। পাবলিক প্রেমিসেস (এভিকশন অফ আনঅথরাইজড় অক্যুপ্যান্টস) আইন, ১৯৭১-এর অধীনে **মোট ১০৯টি** এবং আরও কিছু বিজ্ঞপ্তি অন্নুমোদিত জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে জারি করা হচ্ছে। আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর, জারি করা বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে উচ্ছেদের আদেশ জারি করা হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জামালপর

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ 💟 @EasternRailway 📝 Eastern Railway Headquarter

Advertisement under Regulation 18 (7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended and Corrigendum to the Detailed Public Statement with respect to the open offer to the shareholders of

#### MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

ered Office: B-40, Sudarshanpura Industrial Area (extension), Jaipur-302006, Rajasthan, India Corporate Identification Number (CIN): L74110RJ2013PLC066946 Tel: 0141-2212101; Email: mehai.technology@gmail.com;

Website: www.mehaitech.co.in

Open Offer for acquisition of 27,84,600 (Twenty Seven Lakhs Eighty Four Thousand Six Hundred Only) fully paid up equity shares of Rs.10/- each from equity shareholders of Mehai Technology Limited (hereinafter referred to as "Target Company" or "MEHAI") except parties to Share Purchase Agreement ("SPA") dated 18th October, 2021 by Dynamic Services & Security Limited (hereinafter referred to as "Acquirer" or "DYNAMIC") pursuant to and in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations, 2011.

This Advertisement and Corrigendum is being issued by Finshore Management Services Limited, on behalf of Dynamic Services & Security Limited ("Acquirer") in respect of the open offer to acquire shares from the public shareholders of Mehai Technology Limited ("Offer Opening Public Announcement"). The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made on 26th October, 2021 in Financial Express, English Daily (in all editions), Jansatta, Hindi Daily (in all editions), Mumbai Lakshadeep, Marathi Daily

The Offer Price is Rs.46.54/- (Rupees Forty Six and paise Fifty Four Only) per Equity Share. There has been no revision in the Offe

(in Mumbai edition), Business Remedies, Hindi Daily (in Jaipur edition) and in Duranta Barta, Bengali Daily (in Kolkata edition)

2. Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company

The committee of independent directors of the Target Company ("IDC") published its recommendation on the Offer on 18th January 2022 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011.

The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI SAST Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The Offer is not conditional upon any minimum level of the Offer is not conditional upon acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations, 2011.

Despatch of Letter of Offer to the public shareholders.

The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date has been completed (either through electronic or physical mode) by 20th January, 2022. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer and parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance-cum Acknowledgment) is also available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www.finshoregroup.com) from which the Public Shareholders can download/print the same. 5. Instructions to the public shareholders

5.1 In case the shares are held in physical form As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 3, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 1, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference

number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their respective Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details 5.2 In case the shares are held in demat form An eligible shareholder may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their shares in the open offer a

per the procedure as mentioned in the Letter of Offer along with other details

5.3 Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer: 5.3.1 Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Targe Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), along with the following details In case of physical shares: Name, address, distinctive numbers, folio nos, number of Equity Shares tendered

In case of dematerialized shares: Name, address, number of Equity Shares tendered/withdrawn, DP name DP ID number, Beneficiary account no.

and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer, Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of BSE through the Selling broker which will be made available by BSE before the closure of the Tendering Period.

Any other material change from date of the Public Announcement

Any other changes suggested by SEBI in their comments to be incorporated

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 2nd November 2021 ("Draft Letter of Offer"). SEBI, vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/OW/1584 dated 11th January, 2022, issued its comment on the Draft Letter of Offer. These comments have been incorporated in the Letter of Offer.

8. Details regarding the status of the Statutory and other approvals To the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required by the Acquirer to acquire the equity share

tendered pursuant to this Offer. However, in case of any statutory approvals being required by the Acquirer at a later date before the closure of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals. The Acquirer will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI SAST Regulations, 2011. Corrigendum to the DPS:

The Point D (D.2) of the Detailed Public statement has to be read as- "The Acquirer has entered into the SPA on 18th October 2021 whereby the Acquirer has agreed to acquire 77,06,100 fully paid-up equity shares of face value Rs.10/- each of the Target Company at a price of Rs. 2/- per Equity Share ("Sale Shares"), which constitutes 71.95% of the total issued, subscribed, paid-up equity share capital and voting capital of the Target Company."

Change in contact details of Acquirer: Website: https://dssl.ind.in/ Email: cs@dssl.ind.in

10. Schedule of Activities:

The schedule of major activities under the Offer is set out below Nature of the Activity Original schedule of activities (as Revised Schedule of Activities

·	disclosed in the draft Letter of Offer)			
	Date	Day	Date	Day
Date of Public Announcement	18th October, 2021	Monday	18th October, 2021	Monday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	26th October,2021	Tuesday	26th October,2021	Tuesday
Filing of draft letter of offer with SEBI along with soft copies of Public Announcement and detailed Public Statement	2nd November,2021	Tuesday	2nd November,2021	Tuesday
Last date for a competing offer*	18th November,2021	Thursday	18th November,2021	Thursday
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	26th November,2021	Friday	11th January, 2022***	Tuesday
Identified Date**	30th November,2021	Tuesday	13th January, 2022	Thursday
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the public shareholders of the Target Company as on the identified Date	7th December, 2021	Tuesday	20th January, 2022	Thursday
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	10th December,2021	Friday	25th January, 2022	Tuesday
Last date by which the recommendation of the committee of independent directors of the Target Company will be published.	9th December, 2021	Thursday	24th January, 2022	Monday
Date of public announcement for opening of the Offer in the newspapers where the DPS has been published.	13th December,2021	Monday	26th January, 2022"	Wednesday
Date of Commencement of tendering period	14th December,2021	Tuesday	28th January, 2022	Friday
Date of Closing of tendering period	27th December,2021	Monday	10th February, 2022	Thursday
Last date of communicating rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/return of unaccepted Equity Shares.	10th January, 2022	Monday	24th February, 2022	Thursday

\*\* Identified date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All shareholders (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer and Seller) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

\*\*\*actual date of receipt of SEBI final observations #On 27th January, 2022, there is no publication, hence this advertisement is published on 26th January, 2022

11. Other information The Acquirer accepts full responsibility for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI SAST Regulations, 2011 and for

the information contained in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendun This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum would also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in



Finshore Management Services Limited, Anandlok Block A, Room-207, 227, AJC Bose Road, Tel: +91- 033-22895101/9831020743 Website: www.finshoregroup.com Investor Grievance email id: ramakrishna@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S Asmakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185

**Dynamic Services & Security Limited** 

**Managing Director** 

Place: Kolkata Date: 25<sup>th</sup> January, 2022